



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2446]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2012/अग्राहायण 28, 1934

No. 2446]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2012/AGRAHAYANA 28, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2947(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 640(अ), तारीख 29 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24बी के 82.000 कि.मी. से 124.000 कि.मी. (रायबरेली-इलाहाबाद सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 अप्रैल, 2012 को “आनंद टाइम्स” और “टाइम्स ऑफ इण्डिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बी) के 82.000 कि०मी० से 188.600 कि०मी० तक (रायबरेली — इलाहाबाद सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला—रायबरेली

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	संरचना संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		भूमि के मालिक/संबंधित का नाम
							(वर्ग मीटर में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	रायबरेली	1. रायबरेली	(1) जहानपुर कौंडर	21	सरकारी	रेलवे	583	0.0583	केंद्र सरकार
				22	सरकारी	रोड	106	0.0106	सरकारी
				36	व्यक्तिगत	कृषि	53	0.0053	श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती शान्ती देवी पुत्रीगण स्व. रामनारायण सोनी नि० पुराना हैदरगंज डलमऊ, परानपती पत्नी शीतलादीन नि० सत्यनगर, राम अभिलाष पुत्र रामनारायण, सोनी पुत्री रामनारायण, श्रीमती शान्ती देवी पत्नी देव कृष्ण नि० ग्राम, श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी सरदार सतनाम सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह नि० कचहरी रोड रायबरेली, श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी ब्रिजमोहन सिंह नि० लालपुर रोखा फतेहपुर
					सरकारी	सड़क पोखरा			सरकारी
				37	व्यक्तिगत	कृषि	40	0.004	विजय कुमार वर्मा पुत्र श्याम सुन्दर वर्मा नि० दक्षिणी जहानाबाद, सन्तोष कुमार पुत्र शम्भू नाथ नि० निरालानगर, श्रवण कुमार पुत्र शम्भू नि० ग्राम
				39	सरकारी	रोड	55	0.0055	सरकारी
			(2) गढीमुतवल्ली उर्फ मुशीगंज	54	व्यक्तिगत	कृषि	193	0.0193	कालिका, राजू, गुड्डू (नाबालिग-10 वर्ष) पुत्रगण राम नरेश, राजा राम पुत्र सीता राम, हुब्बी पत्नी विपाती, मु० रामरती पत्नी कंधई लाल, रामेश्वर, सुन्दर लाल पुत्रगण रघुनाथ, मु० बिन्दा देई पत्नी माता दीन, मातादीन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, ज्ञानी पुत्र राम घरन, बाबू, भगोती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदय राम, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11 वर्ष) पुत्र दर्शन संरक्षिका श्रीमती दुधन माता, श्रीमती बुधन पत्नी स्व. दर्शन, श्रीमती इन्दजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, श्रीमती मन्जीत कौर पत्नी मजीत सिंह नि० ग्राम, जगजीत कौर पत्नी रनजीत सिंह नि० कैनाल रोड रायबरेली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				61	व्यक्तिगत	कृषि	520	0.052
								करन कुमार चन्दानी (नाबालिग-13 वर्ष), यश चन्दानी (नाबालिग-10 वर्ष) पुत्रगण अनिल कुमार चन्दानी संरक्षिका मनीषा, श्रीमती मनीषा चन्दानी पत्नी स्व. अनिल कुमार चन्दानी नि० गुरुनानक नगर रायबरेली, श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, श्रीमती मन्जीत कौर पत्नी मंजीत सिंह नि० ग्राम, जगजीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड रायबरेली, रोहित पुत्र मनजीत सिंह, सिमरन (नाबालिग-12वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह संरक्षक पिता स्वयं, सुरजीत सिंह, मंजीत सिंह, रंजीत सिंह पुत्रगण सरदार जगदीश सिंह, जसप्रीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली, श्रीमती जगदेई पत्नी राम सिंह, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी अर्जुन सिंह नि० पूरे लोक सिंह म. खरीली तहसील ऊँचाहार, श्रीमती हरवंश कौर पत्नी स्व० महेन्द्र सिंह, हरजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० म० न० 196 मंशादेवी मन्दिर के पीछे बेलीगंज रायबरेली, श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी सरदार लक्खू सिंह नि० 177 फिरोजगंजी नगर रायबरेली
				62	व्यक्तिगत	कृषि	1,158	0.1158
								करन कुमार चन्दानी (नाबालिग-13 वर्ष), यश चन्दानी (नाबालिग-10 वर्ष) पुत्रगण अनिल कुमार चन्दानी संरक्षिका मनीषा, श्रीमती मनीषा चन्दानी पत्नी स्व. अनिल कुमार चन्दानी नि० गुरुनानक नगर रायबरेली, कालिका, राजू, गूदड़ (नाबालिग-10 वर्ष) पुत्रगण राम नरेश, राजा राम पुत्र सीता राम, हुब्बी पत्नी विपाती, मु. रामरती पत्नी कंधई लाल नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दर लाल पुत्रगण रघुनाथ, बिन्दा देई पत्नी माता दीन, माता दीन, नन्दे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, झानी पुत्र राम धरन, बाबू, भगौती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदय राम, बीरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11 वर्ष) पुत्र दर्शन संरक्षक श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व० दर्शन, श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, श्रीमती मन्जीत कौर पत्नी मंजीत सिंह नि० ग्राम, जगजीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड रायबरेली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				64	व्यक्तिगत	कृषि	473	0.0473
								गंगा धर पुत्र राम अवतार नि० डलमऊ, श्री हरी उपाध्याय पुत्र केदार नाथ नि० इन्दिरानगर रायबरेली, परम सुन्दरी पत्नी राम आशीष नि० देवरिया, वसन्त गुरुदयाल पुत्रगण फत्ते, गंगाधर पुत्र राम औतार नि० ग्राम, विजय पाल पुत्र गंगा प्रसाद नि० मटनीहार तह० डलमऊ, श्री नाथ पुत्र सधू नि० शहर रायबरेली
				66	व्यक्तिगत	कृषि	811	0.0811
								श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली, राम मनोहर, गुर प्रसाद पुत्रगण बाबू लाल नि० ग्राम, हुबलाल पुत्र कल्लू उर्फ बैजू नि० मनेहरू, मो. रशीद पुत्र इमाम बक्स नि० जहानाबाद रायबरेली, रोहित पुत्र मनजीत सिंह, सिमरन (नाबालिग-12 वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह संस्कारक पिता स्वयं, मंजीत सिंह, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह पुत्रगण सरदार जगदीश सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली, राधेश्याम, माता प्रसाद, श्री कृष्ण पुत्रगण महादेव नि० ग्राम, राम सुमेर, सुरेश पुत्रगण गोबरे नि० ग्राम, गंगा देई पत्नी बिन्दादीन, राम नाथ पुत्र मैकू, बाबू लाल पुत्र मैडी लाल, नि० बेलागुशीशी, रामबोध सिंह, रवीन्द्र प्रताप सिंह, महेन्द्र प्रताप सिंह, अमय ब्रजनन्द किशोर सिंह पुत्रगण रामपाल सिंह नि० मनेहरू, मो० जुनैद, मो० बेशन पुत्रगण अब्दुल हमीद नि० शहर रायबरेली
					सरकारी	सड़क पोखता		सरकारी
				67	व्यक्तिगत	कृषि	1,292	0.1292
								इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, जसप्रीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली, राम मनोहर, गुरु प्रसाद पुत्रगण बाबू लाल, हुबलाल पुत्र कल्लू उर्फ बैजू नि० मनेहरू, मो. रशीद पुत्र इमाम बक्स जहानाबाद रायबरेली, रोहित पुत्र मनजीत सिंह, सिमरन (नाबालिग-12 वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह संस्कारक पिता स्वयं, रनजीत सिंह, सुरजीत सिंह, मंजीत सिंह पुत्रगण सरदार जगदीश सिंह, राधेश्याम, माता प्रसाद, श्री कृष्ण पुत्रगण महादेव नि० ग्राम, मो० जुनैद, मो० बेशन पुत्रगण अब्दुल हमीद नि० शहर रायबरेली
					सरकारी	सड़क पोखता		सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				68	व्यक्तिगत	कृषि	1.881	0.1881
								श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी रंजीत सिंह, रोहित पुत्र मनजीत सिंह, सिमरन (नाबालिग-12वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह संरक्षक पिता स्वयं, मंजीत सिंह, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह पुत्रगण सरदार जगदीश सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली, कु० चारु वर्मा पुत्री सुधीर कुमार वर्मा नि० 25/48 एल०आई०जी० कालोनी टैगोर टाउन इलाहाबाद
				69	व्यक्तिगत	कृषि	611	0.0611
								हिमांशु वर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश वर्मा नि० 24/48 एल०आई०जी० कालोनी टैगोर टाउन इलाहाबाद, श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली, राम मनोहर, गुरु प्रसाद पुत्रगण बाबू लाल, हुबलाल पुत्र कल्लू उर्फ बैजू नि० मनेहरू, मो. रशीद पुत्र इमाम बक्स जहानाबाद रायबरेली, रोहित पुत्र मनजीत सिंह, सिमरन (नाबालिग-12 वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह सं. पिता स्वयं, सुरजीत सिंह, मंजीत सिंह, रंजीत सिंह पुत्रगण सरदार जगदीश सिंह, राधेश्याम, माता प्रसाद, श्रीकृष्ण पुत्रगण महादेव नि० ग्राम, सरजू प्रसाद यादव पुत्र बिन्दादीन यादव, नि० 276 आवास विकास कालोनी रायबरेली, मो० जुनैद, मो० बेशम पुत्रगण अब्दुल हमीद नि० शहर रायबरेली
					सरकारी	सड़क पोखरा		सरकारी
				71	व्यक्तिगत	कृषि	668	0.0668
								श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह, रोहित पुत्र मनजीत सिंह, सिमरन (नाबालिग-12वर्ष) पुत्र मनजीत सिंह सं. पिता स्वयं, सुरजीत सिंह, मंजीत सिंह, रंजीत सिंह पुत्रगण सरदार जगदीश सिंह, श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी रंजीत सिंह नि० कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली
				72	व्यक्तिगत	कृषि	3,133	0.3133
								मोहम्मद बक्श पुत्र मो० रसूल नि० ग्राम
				73	व्यक्तिगत	कृषि	2,198	0.2198
								मोहम्मद बक्श पुत्र मो० रसूल नि० ग्राम
				76	व्यक्तिगत	कृषि	421	0.0421
								मगवान दीन पुत्र लाला नि० ग्राम
				77	व्यक्तिगत	कृषि	1,070	0.107
								राम किशुन, राजेन्द्र, चन्द्र प्रकाश, नन्द किशोर पुत्रगण माता दीन नि० ग्राम
				78	व्यक्तिगत	कृषि	864	0.0864
								रामखिलावन, राम नरेश, मुन्नु पुत्रगण लक्ष्मन नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				79	व्यक्तिगत	कृषि	154	0.0154	ओम प्रकाश, राकेश पुत्रगण रामेश्वर, सुन्दर लाल, सजीवन पुत्रगण दुलारे नि० ग्राम
				80	सरकारी	रोड	257	0.0257	सरकारी
				81	व्यक्तिगत	कृषि	3,834	0.3834	श्रीमती खलीकुन पत्नी इब्राहीम नि० ग्राम
				90	सरकारी	रोड	809	0.0809	सरकारी
				91	व्यक्तिगत	कृषि	362	0.0362	सरदार, कल्लन, समीम, असीम, नसीम पुत्रगण जुमई, बँचू पुत्र बाबू, लल्लन, इस्लाम, शलीम, युसुफ, शालिम अली पुत्रगण उमर, श्रीमती राम प्यारी पत्नी छोटे लाल नि० ग्राम
				92	व्यक्तिगत	कृषि	1,336	0.1336	श्याम सुन्दर पुत्र हुबलाल, मातादीन, दर्शन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, गंगादीन पुत्र पंचम, ज्ञानी पुत्र राम चरन, बाबू भगीती पुत्र लाला नि० ग्राम
				93	व्यक्तिगत	कृषि	2,361	0.2361	श्रीमती कमला देवी पत्नी गुरुदीन, राम किशुन पुत्र भगीती नि० ग्राम
				94	व्यक्तिगत	कृषि	301	0.0301	श्रीमती कमला देवी पत्नी गुरुदीन, राम किशुन पुत्र भगीती नि० ग्राम
				95	व्यक्तिगत	कृषि	1,583	0.1583	श्रीमती कमला देवी पत्नी गुरुदीन, राम किशुन पुत्र भगीती नि० ग्राम
				96	सरकारी	रोड	185	0.0185	सरकारी
				97	व्यक्तिगत	कृषि	1,197	0.1197	राज किशोर, तेज बहादुर पुत्रगण पीतम्बर नि० ग्राम
				149	व्यक्तिगत	कृषि	1,742	0.1742	राधेश्याम, माता प्रसाद, श्रीकृष्ण पुत्रगण महादेव, जगन्नाथ, रामप्रसाद पुत्रगण महाराजदीन नि० ग्राम
				154	व्यक्तिगत	कृषि	279	0.0279	रामआसरे, रवीशंकर, परमेश्वर, मनोज कुमार पुत्रगण भरोसे, शंकर लाल, धर्मद कुमार, जितेन्द्र कुमार पुत्रगण राम औतार, गुड्डू पुत्र बुद्धू लाल, कन्धई, प्रेम, हजारी पुत्रगण ननकू नि० ग्राम
				156	व्यक्तिगत	कृषि	63	0.0063	ओम प्रकाश पुत्र कल्लू, रामसजीवन पुत्र डाकू नि० ग्राम, माता प्रसाद पुत्र महादेव, राम नरेश पुत्र सीताराम, श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व. विपाती नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दरलाल पुत्रगण रघुनाथ, सु० बिन्दादेई पत्नी मातादीन, मातादीन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, बाबू, भगीती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयसाम, बिरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11वर्ष) पुत्र दर्शन सं० श्रीमती बृधनमाता, श्रीमती बृधन पत्नी स्व० दर्शन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				157	व्यक्तिगत	कृषि	721	0.0721
								ओम प्रकाश पुत्र कल्लू, रामसजीवन पुत्र ढाकू नि० ग्राम, माता प्रसाद पुत्र महादेव, राम नरेश पुत्र सीताराम, श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व. विपाती नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दरलाल पुत्रगण रघुनाथ, मु० बिन्दादेई पत्नी मातादीन, मातादीन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, बाबू, भगौती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयराम, बिरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11वर्ष) पुत्र दर्शन सं० श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व० दर्शन
				158	व्यक्तिगत	कृषि	798	0.0798
								ओम प्रकाश पुत्र कल्लू, रामसजीवन पुत्र ढाकू नि० ग्राम, माता प्रसाद पुत्र महादेव, राम नरेश पुत्र सीताराम, श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व. विपाती नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दरलाल पुत्रगण रघुनाथ, मु० बिन्दादेई पत्नी मातादीन, मातादीन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, बाबू, भगौती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयराम, बिरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11वर्ष) पुत्र दर्शन सं० श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व० दर्शन
				159	व्यक्तिगत	कृषि	587	0.0587
								ओम प्रकाश पुत्र कल्लू, रामसजीवन पुत्र ढाकू नि० ग्राम, माता प्रसाद पुत्र महादेव, राम नरेश पुत्र सीताराम, श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व. विपाती नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दरलाल पुत्रगण रघुनाथ, मु० बिन्दादेई पत्नी मातादीन, मातादीन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, बाबू, भगौती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयराम, बिरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11वर्ष) पुत्र दर्शन सं० श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व० दर्शन
				160	व्यक्तिगत	कृषि	812	0.0812
								ओम प्रकाश पुत्र कल्लू, रामसजीवन पुत्र ढाकू नि० ग्राम, माता प्रसाद पुत्र महादेव, राम नरेश पुत्र सीताराम, श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व. विपाती नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दरलाल पुत्रगण रघुनाथ, मु० बिन्दादेई पत्नी मातादीन, मातादीन, नन्हे, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, बाबू, भगौती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयराम, बिरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11वर्ष) पुत्र दर्शन सं० श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व० दर्शन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				161	व्यक्तिगत	कृषि	372	0.0372	ओम प्रकाश पुत्र कल्लू, रामसजीवन पुत्र दाकू नि० ग्राम, माता प्रसाद पुत्र महादेव, राम नरेश पुत्र सीताराम, श्रीमती हुब्बी पत्नी स्व. विपाती नि० ग्राम, रामेश्वर, सुन्दरलाल पुत्रगण रघुनाथ, ५० बिन्दादेई पत्नी मातादीन, मातादीन, नन्हें, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, बाबू, भगीती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयराम, विरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11वर्ष) पुत्र दर्शन सं० श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व० दर्शन
				162	व्यक्तिगत	कृषि	146	0.0146	राज किशोर, तेज बहादुर पुत्रगण पीतम्बर नि० ग्राम
				163	व्यक्तिगत	कृषि	2,212	0.2212	अम्बिका प्रसाद पुत्र भगीती प्रसाद नि० ग्राम
				164	व्यक्तिगत	कृषि	5,549	0.5549	श्रीमती शिवकली पत्नी स्व. गंगा प्रसाद, श्रीमती मंजुलता पत्नी स्व. हजारीलाल, श्रीमती आशा देवी पत्नी राकेश कुमार नि० ग्राम
				165	व्यक्तिगत	कृषि	436	0.0436	रयाम शंकर पुत्र राम प्रसाद नि० ग्राम
				167	व्यक्तिगत	कृषि	56	0.0056	सुन्दरलाल पुत्र रघुनाथ, लू लू पत्नी स्व० रघुनाथ, मातादीन, नन्हें, गेंदा, रामकेवल पुत्रगण नारायण, रयानी पुत्र रामचरण, बाबू, भगीती पुत्रगण लाला, मंगरे पुत्र उदयराम, विरेन्द्र, सुरेन्द्र, पुत्रगण दर्शन, नरेन्द्र (नाबालिग-11 वर्ष) पुत्र दर्शन संरक्षक श्रीमती बूधनमाता, श्रीमती बूधन पत्नी स्व. दर्शन नि० ग्राम, श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्रीनाथ नि० मुशीगंज
				168	व्यक्तिगत	कृषि	3,214	0.3214	लक्ष्मण पुत्र शंकर लाल सोनकर नि० चक दीलताबाद विक्रमनगर रायबरेली, जागेश्वर प्रसाद, बाबूलाल, श्रीपाल, श्रीनाथ, कल्लू पुत्रगण ननकू नि० ग्राम
				169	व्यक्तिगत	कृषि	3,892	0.3892	कन्हैयालाल पुत्र दुर्गादीन, बुद्धीलाल, लालता प्रसाद, किशोरीलाल पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद, ५० रुफ पुत्र अब्दुल हफीज, राम शंकर पुत्र बिन्दा प्रसाद, अमृतलाल, मदनलाल, बाबूलाल, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, महेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण मेवालाल, श्रीमती बाबादेई पत्नी स्व. मेवालाल, रामशंकर पुत्र बिन्दा प्रसाद नि० ग्राम
				184	मतरुक	मतरुक	75	0.0075	मतरुक
				187	व्यक्तिगत	कृषि	66	0.0066	आशीश कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद नि० प्रमा कॉम्प्लेक्स शास्त्रीनगर, रायबरेली
				188	व्यक्तिगत	कृषि	2,008	0.2008	गंगा, शिवप्रसाद पुत्रगण श्रीराम, पुत्तिलाल, देवीप्रसाद, करुणाशंकर, ओमप्रकाश पुत्रगण सुन्दर नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				195	सरकारी	स्कूल	948	0.0948	सरकारी
				196	व्यक्तिगत	कृषि	2,148	0.2148	गंगाप्रसाद, चन्द्रप्रकाश, ओमप्रकाश पुत्रगण ककोरे नि० ग्राम
				197	व्यक्तिगत	कृषि	485	0.0485	चन्द नृपन, बुद्ध पुत्रगण गजाधर नि० ग्राम
				198	व्यक्तिगत	कृषि	808	0.0808	सत्यनारायण पुत्र पितई नि० ग्राम
				201	व्यक्तिगत	कृषि	808	0.0808	रामचन्द्रावन पुत्र गवा नि० ग्राम
				203	व्यक्तिगत	कृषि	1,820	0.182	गंगा, शिवप्रसाद पुत्रगण श्रीराम, पुत्तिलाल, देवीप्रसाद, करुणाशंकर, ओमप्रकाश पुत्रगण सुन्दर नि० ग्राम
				204	व्यक्तिगत	कृषि	414	0.0414	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी नयानी प्रसाद पुत्र सुखलाल नि० ग्राम
				205	व्यक्तिगत	कृषि	320	0.032	गंगा, शिवप्रसाद पुत्रगण श्रीराम, पुत्तिलाल, देवीप्रसाद, करुणाशंकर, ओमप्रकाश पुत्रगण सुन्दर नि० ग्राम
				206	व्यक्तिगत	कृषि	2,284	0.2284	प्रदीप, कुलदीप पुत्रगण नारत, श्रीमती गीता पत्नी स्व. नारत, गंगा, शिवप्रसाद पुत्रगण श्रीराम, पुत्तिलाल, देवीप्रसाद, करुणाशंकर, ओमप्रकाश पुत्रगण सुन्दर, श्रीमती मुन्नी पत्नी नयानी प्रसाद पुत्र सुखलाल नि० ग्राम
				212	व्यक्तिगत	कृषि	411	0.0411	मैकू पुत्र जोधी नि० ग्राम
				213	व्यक्तिगत	कृषि	1,771	0.1771	अरविन्द कुमार, आनन्द कुमार, अनूप कुमार, आशीश कुमार पुत्रगण अम्बिका प्रसाद, नि० प्रभा काम्पसेक्स शास्त्री नगर रायबरेली, असोक कुमार, अनिल कुमार, मंजीत प्रसाद, अजय कुमार पुत्रगण भगीती प्रसाद, केदारनाथ, मनोज कुमार, अमित कुमार, अरुण कुमार, अलोक कुमार पुत्रगण अक्षयवर प्रसाद, सावित्री देवी पत्नी अक्षयवर प्रसाद, श्रीमती बिमला सिंह पत्नी बंका बख्श नि० ग्राम
				214	व्यक्तिगत	कृषि	2,234	0.2234	सत्यनारायण, रमेशचन्द्र, परमेश्वर, मनोज कुमार पुत्रगण कसेरी, शंकर लाल, धर्मेश कुमार, विवेक कुमार पुत्रगण राम औत्तर, मुद्दू पुत्र बुद्ध, आस, कन्हई, प्रेम, हजारी पुत्रगण मन्ना नि० ग्राम
				215	व्यक्तिगत	कृषि	1,160	0.116	श्रीमती मैकू पत्नी सरजू नि० ग्राम
		(3) दरियापुर		111	व्यक्तिगत	कृषि	629	0.0629	मुस्तफाखान पुत्र सनमसे नि० ग्राम, कारी प्रसाद पुत्र रमो मेकलाल नि० 2885 मेहलनगर-कानपुर
				112	व्यक्तिगत	कृषि	152	0.0152	सरजू प्रसाद पुत्र नारायण नि० बड़ा डीह न० अकरासी
				113	व्यक्तिगत	कृषि	2,144	0.2144	जमनाल पुत्र लमेश्वर, गिरजानन्दन, रामचन्द्रावन, बुद्धेय मन्दन पुत्रगण लमेश्वर नि० ग्राम, श्रीराम कुमार, धर्मेश कुमार, मन्नाखान पुत्रगण लमेश्वर नि० ग्राम
					सरकारी	बंजर			सरकारी
				118	व्यक्तिगत	कृषि	5,499	0.5499	सरजू प्रसाद पुत्र नारायण नि० बड़ा डीह न० अकरासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				120	व्यक्तिगत	कृषि	3,643	0.3643	राम स्वरूप पुत्र गयादीन, भगवान दीन, शिवबोधन पुत्रगण बिन्दादीन, श्रीमती भगौती देवी पत्नी स्व० बिन्दादीन, हरी प्रसाद, छोटेलाल पुत्रगण माताबदल, शिव शंकर पुत्र कोदक नि० ग्राम
				131	सरकारी	रोड	250	0.025	सरकारी
				132	व्यक्तिगत	कृषि	2,100	0.21	जयप्रकाश, राममिलन पुत्रगण कुंवर लाल, श्रीमति कालिका देवी पत्नी स्व० कुंवर लाल, देवराज, रामनाथ पुत्रगण भाईदीन, राम स्वरूप पुत्र गयादीन, भगवानदीन, शिवबोधन पुत्रगण बिन्दादीन, श्रीमती भगौती देवी पत्नी स्व० बिन्दादीन, हरी प्रसाद, छोटेलाल, पुत्रगण माताबदल, शिव शंकर पुत्र कोदक, संकटा पुत्र दसक, रामअवतार सिंह, राम नारायण सिंह पुत्रगण रामजियावन सिंह नि० ग्राम,
				133	व्यक्तिगत	कृषि	262	0.0382	श्रीमती विनीता शुक्ला पत्नी उदय प्रताप नि० पूरे निघऊ त० सलोन, श्रीमती उर्मिला पत्नी शिवप्रताप शुक्ल, सुषमा त्रिपाठी पत्नी रमेश कुमार नि० नेहरूनगर, श्रीमती मिथलेश शुक्ला पत्नी हर्ष नारायण, श्रीमती चन्दावती पत्नी कृष्ण कुमार नि० नेहरूनगर रायबरेली, सूर्यपाल पुत्र रामरतन नि० पूरे कराईन म० ग्राम, रामऔतार सिंह, रामनारायण सिंह पुत्रगण रामजीयावन सिंह, श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी स्व० राम अवतार सिंह नि० ग्राम, सूर्यपाल पुत्र रामरतन नि० ग्राम पूरे कराईन म० ग्राम, श्रीमती ननका देवी पत्नी नन्दलाल यादव नि० ग्राम, रेखा यादव पत्नी अनिल कुमार यादव नि० मुसीदाबाद तह० डलमऊ, श्रीमती फूलादेवी पत्नी सूरजपाल नि० पूरे कराईन म० ग्राम, श्रीमति कृष्णा कुमारी पत्नी मेडोलाल वर्मा नि० एन.टी.पी.सी. कालोनी ऊँचाहार, श्रीमती मिथलेश शुक्ला पत्नी हर्ष नारायण, श्रीमती चन्दावती पत्नी कृष्ण कुमार नि० नेहरूनगर रायबरेली, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी विसम्बर यादव नि० बेटौली तह० डलमऊ जिला रायबरेली, श्रीमती उर्मिला पत्नी शिव प्रताप शुक्ल, सुषमा त्रिपाठी पत्नी रमेश कुमार, नि० नेहरूनगर रायबरेली, मंगरे प्रसाद पुत्र बदलूराम नि० एन.टी.पी.सी. ऊँचाहार
					सरकारी	सड़क पोखता			सरकारी
				134	सरकारी	रोड	1,168	0.1266	पक्की सड़क रायबरेली से प्रतापगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				135	व्यक्तिगत	कृषि	1523	0.1523
								रामनारायण पुत्र रामेश्वर नि० ग्राम, लक्ष्मी शंकर तिवारी पुत्र अवध बिहारी तिवारी, अजीत कुमार, प्रदीप कुमार, आशीष कुमार पुत्रगण लक्ष्मी शंकर तिवारी नि० गांधीनगर रायबरेली, जनार्दन पुत्र रामेश्वर नि० ग्राम, श्रीमती शील कुमारी पत्नी राजकुमार नि० देदानी, गिरजानन्दन, कामाख्या नन्दन, बृजेश नन्दन पुत्रगण राधेश्याम नि० ग्राम, धीरेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, प्रमेन्द्र कुमार पुत्रगण गणेश प्रसाद नि० ग्राम, श्रीमती दयावती पत्नी संतदीन नि० पूरे मतोली म. मांव, चन्द्रभूषण पुत्र रामपाल, श्रीमती राम दुलारी पत्नी चन्द्रभूषण नि० पूरे गोसाई म झकरासी, विनय कुमार द्विवेदी पुत्र सरयू प्रसाद द्विवेदी नि० 788 न्यू राना नगर रायबरेली, हेमलता सिंह पुत्री नागेन्द्र बहादुर सिंह नि० ग्राम बन्डई पर, सरनी तहो लालगंज रायबरेली, रामप्रताप सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह नि० एम०आई०जी० 13 इन्दिरानगर रायबरेली, श्रीमती स्तुति सिंह पत्नी अजय प्रताप सिंह नि० दरियापुर
		(4) झकरासी		1365	व्यक्तिगत	कृषि	337	0.0337
				1366	व्यक्तिगत	कृषि	7,214	0.7214
				1367	व्यक्तिगत	कृषि	202	0.0202
				1382	सरकारी	तालाब	1,974	0.1974
				1383	व्यक्तिगत	कृषि	870	0.087
				1385	व्यक्तिगत	कृषि	440	0.044
				1386	व्यक्तिगत	कृषि	266	0.0266
				1387	व्यक्तिगत	कृषि	3,500	0.35
								बजरंगी पुत्र केदार नि० ग्राम सुन्दर लाल, रामआसरे, शैलेन्द्र कुमार पुत्रगण मेडीलाल नि० ग्राम, श्रीमती छिटाना पत्नी बली जगेश्वर पुत्र बैजनाथ, गुरुदीन पुत्र खिरई, नि० ग्राम तालाब (ग्राम समाज) रामकुमार, औसान पुत्रगण सुखदेव नि० ग्राम, रामस्वरूप सन्त, राम नरेश पुत्रगण राम औतार नि० ग्राम सीतलादीन, देवीदीन, गणेश पुत्रगण गुरु नि० ग्राम राकेश कुमार, रामकिशोर पुत्रगण गुरुदीन, राम नारायण तिवारी पुत्र रामेश्वर तिवारी नि० 787 रानानगर रायबरेली, रामआसरे पुत्र मेडीलाल, रामबख्श, रामचरण, रामप्रताप, रज्जनलाल पुत्रगण चतुरी, सत्यानारायणी शिक्षा निकेतन दरियापुर प्रबंधक रामनारायण पुत्र रामेश्वर नि० ग्राम पंकज कुमार, इंदिवर पुत्रगण राकेश कुमार, श्रीमती जनक नन्दनी पत्नी स्क० राकेश कुमार, रामकिशोर, राकेश कुमार पुत्रगण गुरुदीन, माता प्रसाद, निर्मल चन्द्र, मूलचन्द्र पुत्रगण केशवदत्त नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1388	व्यक्तिगत	कृषि	660	0.0588	पंकज कुमार, इन्दीवर पुत्रगण राकेश कुमार, श्रीमती जनक नन्दनी पत्नी स्व० राकेश कुमार, रामकिशोर, राकेश कुमार पुत्रगण गुरुदीन, माता प्रसाद, निर्मल चन्द, मूलचन्द पुत्रगण केशवदत्त नि० ग्राम
				1401	सरकारी	ग्राम समाज	1,719	0.1719	सरकारी
				1402	व्यक्तिगत	कृषि	1,189	0.1189	पंकज कुमार, इन्दीवर पुत्रगण राकेश कुमार, श्रीमती जनक नन्दनी पत्नी स्व० राकेश कुमार, राजीव कुमार पुत्र शिवसेवक, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र सुधाकर, श्रीमती शिवप्यारी पत्नी स्व० सुधाकर, माताप्रसाद, निर्मलचन्द, मूलचन्द पुत्रगण केशवदत्त नि० ग्राम
				1403	व्यक्तिगत	कृषि	2,643	0.2643	विजय शंकर, देव शंकर, शिव शंकर पुत्रगण सुखदेव, शिवाकान्त, लक्ष्मी शंकर पुत्र रामेश्वर, कृष्णदत्त पुत्र जगदत्त, अनुराग अग्रहरि पुत्र सुशील कुमार अग्रहरि, श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी रविन्द्र विक्रम नि० ग्राम, रविन्द्र विक्रम पुत्र रविन्द्र लाल नि० 24 ए प्रकाशनगर रायबरेली, हरिश्चन्द्र गुप्ता पुत्र श्याम लाल गुप्ता नि० सोनिया नगर रायबरेली, देवेन्द्र दत्त पुत्र शंकरदत्त, श्रीमती शिमलादेवी पत्नी स्व० शंकर दत्त नि० ग्राम
				1404	व्यक्तिगत	कृषि	846	0.0846	पंकज कुमार, इन्दीवर पुत्रगण राकेश कुमार, श्रीमती जनक नन्दनी पत्नी स्व० राकेश कुमार, राजीव कुमार पुत्र शिवसेवक, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र सुधाकर, श्रीमती शिवप्यारी पत्नी स्व० सुधाकर, माताप्रसाद, निर्मलचन्द, मूलचन्द पुत्रगण केशवदत्त नि० ग्राम
					सरकारी	ग्राम समाज			सरकारी
		(5)मोहम्मदपुर कुदरिया		335	सरकारी	खलिहान	41	0.0041	सरकारी
				390	व्यक्तिगत	कृषि	118	0.0118	बाबूलाल पुत्र ननकऊ, जवाहर, विश्वनाथ, रामपियारे पुत्रगण चौबे, सातिग राम शुक्ला पुत्र बासदेव, श्रीमती बदाला पत्नी दुर्गा नि० ग्राम, श्रीमती सुबेई पत्नी दुर्गा, बलराम पुत्र लालू नि० बाबूनी खुर्द तजह मोहम्मद जित्तः करसोई, मो. शम्शिर, शाह मोहम्मद खलिलः लखनन (सालिग-12वर्षी) पुत्रगण मूल मोहम्मद संरक्षक पिता स्वयं निःशुल्क ग्राम
				892	व्यक्तिगत	कृषि	94	0.0094	लल्लु पुत्र जगमोहन, शम्भू, शिवकुमार पुत्रगण जगन्नाथ, पारसनाथ पुत्र शिवराम, श्रीमती ऊषा पत्नी कृष्णनाथ पुत्री गंगा विशु नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				900	व्यक्तिगत	कृषि	59	0.0059	लल्ला पुत्र जगमोहन, रामू शिवकुमार पुत्रगण जगन्नाथ, पारसनाथ पुत्र शिवराम, श्रीमती ऊषा पत्नी दूधनाथ पुत्री नंगा विष्णु नि० ग्राम
				1021	सरकारी	तालाब	32	0.0032	सरकारी
				1059	व्यक्तिगत	कृषि	99	0.0099	श्रीराम पुत्र बदल, राम लोही पुत्र जगदीश नि० ग्राम
		(6)सराय मोहम्मद शरीफ		425	मतारुक	मतारुक	34	0.0034	मतारुक
				473	मतारुक	मतारुक	59	0.0059	मतारुक
				532	व्यक्तिगत	कृषि	133	0.0133	श्रीमती आशा सिंह पत्नी राम सुंदर सिंह, आजाद प्रताप सिंह पुत्र केदार कथ सिंह, राजकरन सिंह पुत्र समसुरत सिंह नि० ग्राम, जनकराज देवी पत्नी रामसंकर सिंह, राजकुमारी पत्नी हरीशचन्द्र सिंह नि० पूरे बनिया म० हैबरमऊ प० व तह० डलमऊ, फूलचन्द सिंह पुत्र मन्नाचन्द सिंह, श्रीमती कुष्मा देवी पत्नी जितेन्द्र सिंह, दिलावर सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह नि० ग्राम
				554	व्यक्तिगत	कृषि	186	0.0186	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी सुखदेव सिंह नि० ग्राम
				555	व्यक्तिगत	कृषि	191	0.0191	श्रीमती सान्ति देवी पत्नी जगदास सिंह नि० ग्राम
				570	व्यक्तिगत	कृषि	159	0.0159	राम सुन्दर सिंह पुत्र सीताला बक्श सिंह, जगत बहादुर सिंह, कैलास बहादुर सिंह, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुवर बहादुर सिंह, नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्रगण बलराम बहादुर सिंह, कालिका कन्वस सिंह, फूलसिंह, ज्वाला सिंह, देवी बक्श सिंह, पंकज सिंह पुत्रगण रामबहादुर सिंह उर्फ राम हर्ष सिंह नि० ग्राम
				571	मतारुक	मतारुक	212	0.0212	मतारुक
				572	व्यक्तिगत	कृषि	192	0.0192	केदारनाथ सिंह, कामतानाथ सिंह पुत्रगण राम नारायण सिंह नि० ग्राम
				574	व्यक्तिगत	कृषि	150	0.015	बुद्ध राम पुत्र प्रहलाद, रामनाथ, हनुमान, श्याम लाल, गंगा राम, सीता राम पुत्रगण सुब्बा, सुख लाल पुत्र सुरज नि० ग्राम
	2. ऊँचाहार	(1) नवाबगंज		27	सरकारी	बंजर	152	0.0152	सरकारी
				28	सरकारी	खाद के गड्डे	37	0.0037	सरकारी
				45	सरकारी	चकरोड	20	0.002	सरकारी
				57	व्यक्तिगत	कृषि	39	0.0039	शम्भू प्रसाद पुत्र जगन्नाथ नि० ग्राम
				85	व्यक्तिगत	कृषि	16	0.0016	कलावती पत्नी सधा कृष्ण, श्रीमती पूजा पत्नी स्व. ब्रज किशोर, सूरज कुमार, ऋषभ कुमार (नाबालिग- 14.9 वर्ष) पुत्रगण स्व० बृज किशोर स० पूजा नि० ग्राम
				88	व्यक्तिगत	कृषि	92	0.0092	बासदेव प्रसाद पुत्र लक्ष्मण नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(2) भीख	383	व्यक्तिगत	कृषि	448	0.0448	बद्री नारायण सिंह पुत्र भगवत सिंह, दुगेद बहादुर सिंह, अरविन्द कुमार सिंह पुत्रगण नरसिंह बहादुर सिंह नि० ग्राम, अशोक बहादुर सिंह पुत्र प्रताप बहादुर सिंह नि० घोबहा, कप्तान सिंह पुत्र गया बक्स सिंह, कंचन सिंह पत्नी गया बक्स सिंह, गनेश बक्स सिंह पुत्र शिव नारायण सिंह, बिन्दादीन पुत्र दत्तादीन नि० ग्राम
			(3) टाघन	17	व्यक्तिगत	कृषि	223	0.0223	श्रीमती केवला देवी पत्नी श्रीनाथ नि० ग्राम
				18	व्यक्तिगत	कृषि	141	0.0141	शिवकान्त पुत्र सुखराम नि० ग्राम
				23	सरकारी	बंजर	173	0.0173	सरकारी
				161	व्यक्तिगत	कृषि	269	0.0269	राजकुमार पुत्र सुखनन्दन, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी राजकुमार नि० ग्राम जगतपुर, श्रीमती रमाकान्ती पत्नी रामलखन, हरिशंकर पुत्र सुखराज प्रसाद, उमा शंकर पुत्र रामरतन, शिवकुमार पुत्र सुखराम नि० ग्राम
				103	व्यक्तिगत	कृषि	68	0.0068	प्रमोद कुमार, जितेन्द्र कुमार पुत्रगण श्यामलाल, शिवमोहन, शिव नायक पुत्रगण सुखराम, नीरज कुमार, धीरज कुमार पुत्रगण शिवभजन, मु० सावित्री देवी पत्नी स्व. शिव भजन, श्रीमती प्रमा देवी पत्नी श्यामलाल नि० ग्राम
				164	व्यक्तिगत	कृषि	28	0.0028	प्रमोद कुमार, जितेन्द्र कुमार पुत्रगण श्यामलाल, शिवमोहन, शिव नायक पुत्रगण सुखराम, नीरज कुमार, धीरज कुमार पुत्रगण शिवभजन, मु० सावित्री देवी पत्नी स्व. शिव भजन, श्रीमती प्रमा देवी पत्नी श्यामलाल नि० ग्राम
				165	व्यक्तिगत	कृषि	70	0.007	शिवनारायण पुत्र मेडई नि० ग्राम
				166	व्यक्तिगत	कृषि	47	0.0047	सत्यनारायण, शिवनारायण, शिवलाल, जयनारायण, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण औसान, श्रीमती फूला देवी पत्नी स्व. औसान नि० ग्राम
				167	व्यक्तिगत	कृषि	57	0.0057	देवीदीन, ईश्वरलाल, भगवानदीन पुत्रगण शक्तीदीन, रामचन्द्र, पूनमचन्द्र, महेशचन्द्र, हुकूम चन्द्र पुत्रगण परमेश्वरदीन नि० ग्राम
				168	व्यक्तिगत	कृषि	51	0.0051	बाबूलाल, रामनाथ पुत्रगण गंगादीन पासो, रमेश कुमार पुत्र रामकिशुन नि० ग्राम रेवरी म० चकनिजाम, छोटेलाल, श्रीपाल, सूरजपाल पुत्रगण रामदयाल, श्रीमती चौबारासी पत्नी स्व. रामदयाल नि० ग्राम
				169	सरकारी	बंजर	20	0.002	सरकारी
				170	व्यक्तिगत	कृषि	48	0.0048	कोदक पुत्र मंगरे, सीताराम, राधेश्याम पुत्रगण हुबलाल नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				229	व्यक्तिगत	कृषि	43	0.0043	राज बहादुर सिंह, जग बहादुर सिंह पुत्रगण महावीर सिंह, हिम्मत बहादुर सिंह पुत्र महादेव, सुरजीत सिंह, रणविजय सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्रगण राम बहादुर सिंह, श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व० राम बहादुर सिंह, धर्मेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण फतेह बहादुर सिंह, श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० फतेह बहादुर सिंह नि० ग्राम
				230	व्यक्तिगत	कृषि	25	0.0025	लोनई पुत्र माताबदल, दुर्गा, सूरज दीन, मंगल पुत्रगण शितल, बुद्ध, लाल, बूज लाल पुत्रगण रामसेवक, रामकिशुन, राम बक्स, राम देव पुत्रगण सुख लाल नि० ग्राम
				253	व्यक्तिगत	कृषि	44	0.0044	छिटई प्रसाद, राम औतार पुत्रगण पंचम, मु० मैका पत्नी स्व० पंचम, बुधई पुत्र ओरी चमार नि० ग्राम, श्रीमती रामलली पत्नी जगतपाल सिंह, जगतपाल सिंह पुत्र सुखपाल सिंह नि० जिंगना
				260	सरकारी	बंजर	181	0.0181	सरकारी
				261	सरकारी	स्कूल फार्म	139	0.0139	सरकारी
				262	सरकारी	आबादी	26	0.0026	सरकारी
				263	व्यक्तिगत	कृषि	9	0.0009	कमला देवी पत्नी राम किशोर नि० ग्राम
					सरकारी	भीटा			सरकारी
		(4) बेरीहार		229	सरकारी	रोड	121	0.0121	सरकारी
				230	सरकारी	बंजर	25	0.0025	सरकारी
				231	सरकारी	रोड	37	0.0037	सरकारी
				236	सरकारी	रोड	261	0.0261	सरकारी
				237	व्यक्तिगत	कृषि	44	0.0044	द्वारिका प्रसाद पुत्र ननकल, कृष्ण कुमार, राम गोपाल पुत्रगण बिन्देश्वरी, जगसानी पत्नी स्व० बिन्देश्वरी, श्रीमती रामपती पत्नी गनेशी, अयोध्या, रामलाल, बरोसे पुत्रगण ककोरे, सत्य नारायण, राम नारायण, राम आसरे, शत्रुहन लाल, छोटे लाल पुत्रगण बिन्दादीन, सूरजदीन पुत्र शीतल नि० ग्राम
					सरकारी	बंजर			सरकारी
		(5) रोझड़िया गोकुलपुर		58	व्यक्तिगत	कृषि	129	0.0129	राम स्वरूप, राम दयाल पुत्रगण तुन्नी नि० ग्राम
				90	सरकारी	चकरोड	3	0.0003	सरकारी
				93	व्यक्तिगत	कृषि	345	0.0345	राजू पाल पुत्र रामफल, श्रीमती शफीकुन निशा पत्नी मो० कयूम नि० ग्राम
				360	व्यक्तिगत	कृषि	217	0.0217	नर्वदा प्रसाद, बंदी प्रसाद पुत्रगण जगतपाल, सदशिव पुत्र बेनीप्रसाद, तेजनाथ पुत्र देवी दयाल, श्रीमती मालती देवी पत्नी राम नारायण नि० ग्राम
		(6) हटीरा बुजुर्ग		1767	व्यक्तिगत	कृषि	1,052	0.1052	लालू राम, शिव हर्ष, शिव चरन, देवी सरन पुत्रगण हरीलाल नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				1768	व्यक्तिगत	कृषि	119	0.0119	प्रभु दयाल, राम अर्धार पुत्रगण भवानी भीख, राजेंद्र प्रसाद प्रेम चंद्र, गिरीश चंद्र, राज कुमार पुत्रगण महादेव, दीपक, सूरज पुत्रगण हुकुमचन्द्र, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० हुकुम चन्द्र, श्रीमती सुनैना पत्नी स्व० शिव कुमार नि० ग्राम	
				1769	व्यक्तिगत	कृषि	2,077	0.2077	राजेन्द्र प्रसाद, प्रेम चन्द्र, गिरीश चन्द्र, राजकुमार पुत्रगण महादेव, शिवकुमार, प्रभुदयाल, राम अर्धार पुत्रगण भवानी भीख, लखना, पत्नी स्व० महादेव, चिन्तामणि, भगवत प्रसाद, गजधर नाथ पुत्रगण सूरजप्रसाद, दीपक, सूरज पुत्रगण हुकुमचन्द्र, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० हुकुम चन्द्र नि० ग्राम	
				2552	व्यक्तिगत	कृषि	745	0.0745	विटाना पत्नी मैकू नि० ग्राम, विनोद कुमार, राम बहादुर नि० चंडरई	
				2680	व्यक्तिगत	कृषि	190	0.019	केवल प्रसाद पुत्र सूरजपाल, सतीश, श्याम पुत्रगण मदन, जगदीश प्रसाद पुत्र भगवान, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण उमाशंकर, शिवकली पत्नी स्व० उमा शंकर नि० ग्राम	
				2688	व्यक्तिगत	कृषि	861	0.0861	सोहनलाल पुत्र स्वामीदयाल नि० चंडरई, कुलदीप (नाबालिग-8वर्ष) पुत्र तेजबहादुर सो० साधनादेवी माँ, तेज बहादुर पुत्र त्रिवेणी प्रसाद, श्रीमती कलावती पत्नी धनपाल नि० ग्राम	
				2688	सरकारी	चकरोड	28	0.0028	सरकारी	
				2691	व्यक्तिगत	कृषि	449	0.0449	रघुनाथ, सुन्दरलाल, विश्वनाथ पुत्रगण रामसेवक नि० ग्राम, चन्द्र किशोर पुत्र रामदुलारे निवासी कोटिया चित्रा, श्रीमती राजरानी पत्नी लालता प्रसाद नि० बमनपुर नीलम सिंह पुत्री अक्केश कुमार नि० खजुरी म. इटीरा बुजुर्ग	
				(7) सदैया हसन	663	व्यक्तिगत	कृषि	418	0.0418	गंगा विष्णु, अशोक कुमार, अनिल कुमार, बलराम पुत्रगण गया प्रसाद नि० ग्राम
				664	सरकारी	चकरोड	11	0.0011	सरकारी	
				665	व्यक्तिगत	कृषि	194	0.0194	शिव बालक पुत्र बैजू, रामदेव, रामसमुझ पुत्रगण बाबू, श्री राम, राम सजीवन पुत्रगण भगवान, देव नारायण पुत्र लाल बहादुर, राम अभिलाख, राम लखन पुत्रगण शिव मंगल, राम भवन पुत्र केदार, श्रीमती सम्पति पत्नी स्व० केदार नि० ग्राम	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(a) सम्रापुर नवादा	1240	व्यक्तिगत	कृषि	108	0.0108	मेहबूब खां, रहमत खां, आफताब अहमद खां, हसन खां पुत्रगण हुसमत खां निः सर्विया हसन, अमरनाथ त्रिपाठी पुत्र बृजलाल निः दीलतपुर, अख्ताकन निशा पत्नी रक्त खलील खां, हसन खां, कबनैन खां, परवेज खां, आवेश खां, जावेद खां, सहदेन खां, अलफाज खां पुत्रगण खलील खां निः सर्विया हसन, सरवर खां पुत्र गुलाम असगर खां, अलीम खां पुत्र सलीम खां, मुकीम खां, मुस्तकीम खां तसलीम खां, नदीम खां पुत्रगण नईम खां, सरवरी बेगम, हकीकुन निशा पत्नीगण नईम खां, अनिल कुमार गुप्ता पुत्र रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता निः खत्री टोला नगरपंचायत ऊँचाहार
				1241	व्यक्तिगत	कृषि	54	0.0054	मेहबूब खां, रहमत खां, आफताब अहमद खां, हसन खां पुत्रगण हुसमत खां निः सर्विया हसन, अमरनाथ त्रिपाठी पुत्र बृजलाल निः दीलतपुर, अख्ताकन निशा पत्नी रक्त खलील खां, हसन खां, कबनैन खां, परवेज खां, आवेश खां, जावेद खां, सहदेन खां, अलफाज खां पुत्रगण खलील खां निः सर्विया हसन, सरवर खां पुत्र गुलाम असगर खां, अलीम खां पुत्र सलीम खां, मुकीम खां, मुस्तकीम खां तसलीम खां, नदीम खां पुत्रगण नईम खां, सरवरी बेगम, हकीकुन निशा पत्नीगण नईम खां, अनिल कुमार गुप्ता पुत्र रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता निः खत्री टोला नगरपंचायत ऊँचाहार
				1242	व्यक्तिगत	कृषि	47	0.0047	मेहबूब खां, रहमत खां, आफताब अहमद खां, हसन खां पुत्रगण हुसमत खां निः सर्विया हसन, अमरनाथ त्रिपाठी पुत्र बृजलाल निः दीलतपुर, अख्ताकन निशा पत्नी रक्त खलील खां, हसन खां, कबनैन खां, परवेज खां, आवेश खां, जावेद खां, सहदेन खां, अलफाज खां पुत्रगण खलील खां निः सर्विया हसन, सरवर खां पुत्र गुलाम असगर खां, अलीम खां पुत्र सलीम खां, मुकीम खां, मुस्तकीम खां तसलीम खां, नदीम खां पुत्रगण नईम खां, सरवरी बेगम, हकीकुन निशा पत्नीगण नईम खां, अनिल कुमार गुप्ता पुत्र रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता निः खत्री टोला नगरपंचायत ऊँचाहार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1245	व्यक्तिगत	कृषि	31	0.0031	महबूब खां, रहमत खां, हसमत खां, आफताब अहमद खां, पुत्रगण हुसमत खां, अख्ताकून निशा पत्नी स्व० खलील खां, हसनैन खां, कबनैन खां, परवेज खां, आवेश खां, जावेद खां, सहदेन खां, अलफाज खां पुत्रगण खलील खां नि० सवैया हसन
				1248	व्यक्तिगत	कृषि	649	0.0649	साजिद खां, राशिद खां पुत्रगण जाहिद खां, खालिद खां पुत्र आबिद खां, तालिब खां (नाबालिग-15वर्ष) पुत्र आबिद खां सं. फातमा बानो, अबरार खां, अ. जम्हार खां पुत्रगण अ. गफ्फार खां, मुकर्रम खां, वशीर खां, हफीज खां, मुअज्जम खां पुत्रगण मुहर्रम खां, मो. रफीक खां, मो. मेराज खां पुत्रगण मो. इदरीस खां, मु. अच्छन खातून पत्नी मो. इदरीस खां, मुनीर खां, शकील खां, वकील खां, मुस्तकीम खां पुत्रगण रज्जब खां, मु. आय शवी पत्नी स्व० मोहर्रम खां, मुबारक खां, मसरुद खां, मो. हुसैन खां, मुअज्जम खां, आजम खां पुत्रगण मोहर्रम खां, सिराज खां, मुमताज खां पुत्रगण इनायतुल्ला खां, मु. रहमतुन निशा पत्नी स्व० इनायतुल्ला खां नि० ग्राम सवैया हसन
			(9) खोजनपुर	1	व्यक्तिगत	कृषि	375	0.0375	अगन पुत्र लक्ष्मण, रामलखन, शिवप्रताप पुत्रगण अगन नि० ग्राम, लक्ष्मी नाराण पुत्र शिव नारायण नि० अरखा, शिवकली पत्नी रामअधर, श्रीमती जानकी पत्नी भोला राम नि० ग्राम
					सरकारी	ऊसर			सरकारी
				53	व्यक्तिगत	कृषि	698	0.0698	मो. इलियास पुत्र शेर मोहम्मद नि० ग्राम ऊँचाहार, राममनोहर उर्फ बुन्दावन, सुरेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण रामकुमार, विवेक सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह, उर्मिला सिंह पत्नी स्व० शिव प्रताप सिंह, रवी प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह पुत्रगण शारदा शरण सिंह नि० ग्राम, मो० रासिद अंसारी पुत्र महमुदुल हसन, शमसुल हक पुत्र मो. रमजान नि० ऊँचाहार, रामकुमार पुत्र ठाकुरदीन नि० ग्राम राकेश कुमार पुत्र श्रीपाल नि० पूरे चादन, श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी गंगा प्रसाद नि० सिठौरा त. खागा जिला फतेहपुर
				55	व्यक्तिगत	कृषि	215	0.0215	विद्यासागर पुत्र महादेव, डा० संतलाल पुत्र सतनगेर, श्रीमती कन्या देवी पत्नी घनश्याम वर्मा, घनश्याम वर्मा पुत्र स्व० दयाशंकर वर्मा नि० ग्राम
					सरकारी	ऊसर			सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				271	व्यक्तिगत	कृषि	900	0.09	श्रीमती कृष्णावती पत्नी रामलखन, श्रीमती विद्या देवी पत्नी बंदी प्रसाद नि० खसैली, राम लखन, बंदी पुत्रगण राम शरन नि० ग्राम, मु. भगवान देई पत्नी राम सजीवन नि० ग्राम पूरे ठकुराई न. खसैली
				280	व्यक्तिगत	कृषि	201	0.0201	चन्दनलाल, हरीप्रसाद, रामलखन, रामकेश पुत्रगण रामपाल, श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. रामपाल नि० ग्राम, सत्यनारायण, शिवप्यारे पुत्रगण महावीर, गंगा प्रसाद पुत्र रामदुलारे, माताप्रसाद, औसानलाल, रामआसरे पुत्रगण शीतल नि० ग्राम पूरे पसऊ न. चंडरई
		(10) केवाहार		2362	व्यक्तिगत	कृषि	85	0.0085	श्रीमती सविता देवी पत्नी स्क० सम्भूनाथ, जगदीश नारायण, जय नारायण, राज नारायण, राकेश कुमार, अविनाश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण स्क० हंभू नाथ नि० ग्राम
				2363	व्यक्तिगत	कृषि	227	0.0227	श्रीमती सविता देवी पत्नी स्क० सम्भूनाथ, जगदीश नारायण, जय नारायण, राज नारायण, राकेश कुमार, अविनाश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण स्क० हंभू नाथ, जगदीश प्रसाद, श्री नेवाज पुत्रगण दुर्गा दीन, राजाराम पुत्र भगवत नि० ग्राम
				2364	मतरुख	मतरुख	882	0.0882	मतरुख
				2365	व्यक्तिगत	कृषि	142	0.0142	जगदीश पुत्र रामदुलारे नि० ग्राम पट्टी रहस केवल, श्रीमती सविता देवी पत्नी स्क० सम्भूनाथ, कसुदेव पुत्र राम नारायण नि० ग्राम, मेरा लाल, राम लोटन, राम बहादुर पुत्रगण महलीर नि० पचखरा, रामेश्वर, ओंकार नाथ पुत्रगण शीतल दीन नि० पूरे त्रिभुवन, जगदीश नारायण, जय नारायण, राज नारायण, राकेश कुमार, अविनाश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण स्क० हंभू नाथ नि० ग्राम
				2475	मतरुख	मतरुख	668	0.0668	मतरुख
				2476	मतरुख	मतरुख	49	0.0049	मतरुख
				3684	व्यक्तिगत	कृषि	53	0.0053	श्रीमती सविता देवी पत्नी स्क० सम्भूनाथ, जगदीश नारायण, जय नारायण, राज नारायण, राकेश कुमार, अविनाश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण स्क० हंभू नाथ नि० ग्राम
				3696	व्यक्तिगत	कृषि	46	0.0046	भागीरथ पुत्र इंद्री लाल नि० ग्राम
				3698	मतरुख	मतरुख	34	0.0034	मतरुख
				3706	व्यक्तिगत	कृषि	26	0.0026	सुल्लन पुत्र बकरीदी, कल्लन, बखन पुत्रगण लल्लन, ताजदा बेगम पत्नी स्क० लल्लन, मुनीर अहमद, पीर मो. शरीफ अहमद पुत्रगण मुल्लन, मु. खैरुन निशा पत्नी स्क० मुल्लन नि० ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				58	व्यक्तिगत	कृषि	210	0.021	श्रीमती अनीता राय पत्नी दयाराम नि० ग्राम,
				58	व्यक्तिगत	कृषि	141	0.0141	राम मनोहर उर्फ बुन्दावन, सुरेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण रामकुमार, कमलेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह पुत्रगण शारदा शरण सिंह नि० ग्राम, डा० नीलम मौर्या पत्नी डा० अरुण कुमार मौर्या नि० बबुलपुर तह. कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, विवेक सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह, उर्मिला सिंह बेवा शिव प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह नि० ग्राम
				60	व्यक्तिगत	कृषि	205	0.0205	अबरार खां, अब्दुल जम्बार खां पुत्रगण गफ्फार खां, फयाज खां पुत्र रियाज खां, रामकुमार पुत्र बेनीमाधव नि० सवैया हसन
				61	व्यक्तिगत	कृषि	488	0.0488	कमलेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह पुत्रगण शारदासरन सिंह, गणेश प्रसाद पुत्र काली प्रसाद, नागेश्वर प्रसाद पुत्र गंगा प्रसाद नि० ग्राम
				63	व्यक्तिगत	कृषि	149	0.0149	लालता प्रसाद पुत्र शिवरत्न नि० ग्राम, गजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर नि० पुरवारा
				70	सरकारी	बंजर	547	0.0547	सरकारी
				83	व्यक्तिगत	कृषि	545	0.0545	मो. फारूख पुत्र शेर मो. नि० ग्राम, श्रीमती सुमन मिश्रा पत्नी जीतेन्द्र मिश्रा नि० पूरे मिश्रन म. गणेहरा, श्रीमती रूबी शुक्ला पत्नी छोटेलात नि० छिपिया म., रघुनाथ पुत्र रामदुलारे नि० ग्राम, बैजनाथ, विश्वनाथ पुत्रगण पंचम नि० मौर्या स्टेट रेलवे कासिंग ऊँचाहार, राम आसरे पुत्र राम सुमेर नि० ग्राम
				92	व्यक्तिगत	कृषि	281	0.0281	रामनिवास पुत्र देवतादीन नि० मुराई का बाग, रईस खां, सहद खां पुत्रगण अनीश खां, श्रीमती अरुण निशा पत्नी स्व. अनीश खां नि० ग्राम, अबरार खां, अ. जम्बार खां पुत्रगण गफ्फार खां नि० सवैया हसन
				94	सरकारी	बंजर	150	0.015	सरकारी
				100	सरकारी	उद्योग	349	0.0349	छोटे पैमाने का उद्योग (उत्तर प्रदेश सरकारी)
	सरकारी	ऊसर			सरकारी				
	सरकारी	तहसील भवन परिसर			सरकारी				
				267	व्यक्तिगत	कृषि	2323	0.2323	ज्ञान बहादुर सिंह, जितेन्द्र बहादुर सिंह, धीरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्रगण देवदास सिंह, श्रीमती छविराज कुबेर पत्नी स्व. देवदास सिंह नि० ग्राम श्रीमती प्रेमा सिंह पत्नी चन्द्रमान सिंह नि० पूरे राठौर म. ऊँचाहार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3736	सरकारी	इलेक्ट्रिक विभाग मुख्य अभियंता,	162	0.0162	इलेक्ट्रिक विभाग मुख्य अभियंता, श्रीमती राधिका देवी पत्नी स्व० रामभूनाथ, जगदीश नारायण, जय नारायण, राज नारायण, राकेश कुमार, अविनाश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण स्व० शंभू नाथ नि० ग्राम
				3737	व्यक्तिगत	कृषि	68	0.0068	इनायत फातिमा पत्नी जकी हसन, गुलाब चन्द्र पुत्र राम भरोसे नि० ग्राम, यूपी० स्टेट इलेक्ट्रिक सिटी लखनऊ
				3738	व्यक्तिगत	कृषि	27	0.0027	जगन्नाथ, उमानाथ पुत्रगण गजाधर नि० ग्राम सवैया धनी
				3743	व्यक्तिगत	कृषि	236	0.0236	इनायत फातिमा पत्नी जकी हसन, रामकुमार पुत्र राम भरोसे नि० एन.टी.पी. सी. ऊँचाहार
				3947	सरकारी	ब्लाक भवन	92	0.0092	सरकारी
				3948	मतरूख	मतरूख	228	0.0228	मतरूख
			(11) जयरामपुर उर्फ मदारीगंज	143	व्यक्तिगत	कृषि	98	0.0098	संतसरन पुत्र राम नारायण नि० ग्राम, हृदय नारायण, राजेश नारायण, मुनेश नारायण पुत्रगण जगदीश नारायण नि० रायबरेली

[फा. सं. भाराप्र/11013/एलए/3डी-नोटिफ/पीआईयू-रायबरेली]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2012

S.O. 2947(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 640 dated 29 March, 2012** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 24B on the stretch of land from **Km. 82.000 to Km 124.000 (Raebareilly - Allahabad Section)** in district **Raebareilly** in the State of Uttar Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Anand Times" and "Times of India" both dated 22 April, 2012 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 82.000 to Km. 124.000 (Raebareilly – Allahabad Section) on the National Highway No. 24B in the state of Uttar Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of the land	Nature of the land	Area		Name of the person interested
							(In square meters)	(in hectares)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Raebareilly	Raebareilly	(1) Jahanpur Khondar	21	Government	Railway	583	0.0583	Central Government
				35	Government	Road	106	0.0106	Government
				36	Private	Agriculture	53	0.0053	Smt Krishna Devi, Smt Shanti Devi D/o Late Ramnarayan Soni R/o Old Haidarganj Dalmau, Prampati S/o Shiladeen R/o Satyanagar, Ramabhilakh S/o Ramnarayan, Soni D/o Ramnarayan, Smt. Shanti Devi W/o Dev Krishna R/o Vill, Smt. Surendra Kaur W/o Sardar Satnam Singh, Pushpendra Singh S/o Satnam Singh R/o Kachahri Road Rbi, Smt. Shanti Singh W/o Brijmohan Singh R/o Lalupur Rokha Fatehpur
					Government	Road			Government
				37	Private	Agriculture	40	0.004	Vijay Kumar Verma S/o Shyam Sundar Verma R/o South Jahanabad, Santosh Kumar S/o Sambhunath R/o Niralanagar, Sravan Kumar S/o Shambhu R/o Vill
				39	Government	Road	55	0.0055	Government
			(2) Gharimutwali Urf Munshiganj	54	Private	Agriculture	193	0.0193	Kalika, Raju, Guddu (Minor-10yrs) Sons of Ram Naresh, Raja Ram S/o Sita Ram, Hubbi W/o Vipati, Mu. Ramrati W/o Kandhai Lal, Rameshwar, Sundar Lal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Mata Deen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Narayan, Gyani S/o Ram Charan, Babu, Bhagauti Sons of Lala, Mangre S/o Uday Ram, Virendra, Surendra, Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan, Gardian Smt Budhan Mata, Smt. Budhan W/o Late

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Darshan, Smt Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Smt. Manjeet Kaur W/o Manjeet Singh R/o Vill, Jagjeet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainal Road Rbl
				61	Private	Agriculture	520	0.052
								Karan Kumar Chandani (Minor-13yrs), Yash Chandani (Minor-10yrs) Sons of Anil Kumar Chandani Gardian Manisha, Smt Manisha Chandani W/o Late Anil Kumar Chandani R/o Gurunanak Nagar Rbl, Smt Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Smt Manjeet Kaur W/o Manjeet Singh R/o Vill, Jagjeet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainal Road Rbl, Rohit S/o Manjeet Singh, Simran (Minor-12yrs) S/o Manjeet Singh Gardian Father Self, Surjeet Singh, Manjeet Singh, Ranjeet Singh Sons of Sardar Jagdish Singh, Jaspreet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainal Road Prakash Nagar Rbl., Smt Jagdei W/o Ramsingh, Smt Sumitra Devi W/o Arjun Singh R/o Poore Lok Singh M. Kharauli Teh. Unchahar, Smt Harvansh Kaur W/o Late Mahendra Singh, Harjeet Singh S/o Mahendra Singh R/o H No. 196 Behind Manshadevi Mandir Beliganj Rbl, Smt Surendra Kaur W/o Sardar Lakkhu Singh R/o 177 Firojgandhi Nagar Rbl
				62	Private	Agriculture	1,158	0.1158
								Karan Kumar Chandani (Minor-13yrs), Yash Chandani (Minor-10yrs) Sons of Anil Kumar Chandani Gardian Manisha, Smt Manisha Chandani W/o Late Anil Kumar Chandani R/o Gurunanak Nagar Rbl, Kalika, Raju, Guddu (Minor-10Yrs) Sons of Ram Nareish, Raja Ram S/o Sita Ram, Hubby W/o Vipati, Mu. Ramrati W/o Kandhai Lal R/o Vill, Rameshwar, Sundar Lal Sons of Raghunath, Binda Dei W/o Mata Deen, Mata Deen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Narayan, Gyani S/o Ram Charan, Babu, Bhagauti Sons of Lala, Mangre S/o Uday Ram, Virendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11Yrs) S/o Darshan Gardian Smt. Budhan Mata, Smt. Budhan W/o Late Darshan, Smt Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Smt Manjeet Kaur W/o Manjeet Singh R/o Vill, Jagjeet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainal Road Rbl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				64	Private	Agriculture	473	0.0473	Ganga Dhar S/o Ram Avatar R/o Dalmau, Sri Hari Upadhyay S/o Kedar Nath R/o Indira Nagar Rbl, Param Sundari W/o Ram Ashish R/o Devariya, Basant, Gurudayal Sons of Fatte, Gangadhar S/o Ram Avtar R/o Vill, Vijay Pal S/o Ganga Prasad R/o Matnihar Teh Dalmau, Sri Nath S/o Saddhu R/o Shahar Rbl
				66	Private	Agriculture	811	0.0811	Smt Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Smt Jaspreet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainat Road Prakash Nagar Rbl, Ram Manohar, Guru Prasad Sons of Babu Lal R/o Vill, Hublal S/o Kallu Urf Baiju R/o Mancharu, Md. Rasid S/o Imam Baksh R/o Jahanabad Rbl, Rohit S/o Manjeet Singh, Simran (Minor-12yrs) Sons of Manjeet Singh Gardian Father Self, Manjeet Singh, Surjeet Singh, Ranjeet Singh Sons of Sardar Jagdeesh Singh R/o Kainat Road Prakash Nagar Rbl, Radheshyam, Mata Prasad, Sri Krishna Sons of Mahadev R/o Vill, Ram Sumer, Suresh S/o Gobre R/o Vill, Ganga Dei w/o Bindadeen, Ram Nath S/o Maiku, Babu Lal S/o Mendi Lal R/o Belagushishi, Rambodh Singh, Ravindra Pratap Singh, Mahendra Pratap Singh, Abhay Brijnand Kishore Singh Sons of Rampal Singh R/o Mancharu, Md Junaid, Md. Beshan Sons of Abdul Hamid R/o Shahar Rbl
					Government	Sadak Pokhta			Government
				67	Private	Agriculture	1,292	0.1292	Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Jaspreet Kaur W/o Ranjeet Singh
					Government	Sadak Pokhta			Government
				68	Private	Agriculture	1,881	0.1881	Smt Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Smt Jaspreet Kaur W/o Ranjeet Singh, Rohit S/o Manjeet Singh, Simran (Minor-12yrs) Sons of Manjeet Singh Gardian Father Self, Manjeet Singh, Surjeet Singh, Ranjeet Singh Sons of Sardar Jagdeesh Singh R/o Kainat Road Prakash Nagar Rbl, Km Charu Verma D/o Sudhir Kumar Verma R/o 25/48 LIG Colony Taigor Town Allahabad

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				69	Private	Agriculture	611	0.0611
								<p>Himanshu Verma, S/o Chandan Prakash Verma R/o 24/48 LIC Colony Taigor Town Allahabad, Smt Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Smt Jaspreet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainat Road Prakash Nagar Raebareli, Ram Manohar, Guru Prasad Sons of Babulal, Hublal S/o Kallu Urf Baiju R/o Manohara, Md Rasool S/o Imam Baksh R/o Jahanabad Rbl, Rohit S/o Manjeet Singh,</p> <p>Simran (Minor-12yrs) S/o Manjeet Singh Gardian Father Self, Surjeet Singh, Manjeet Singh, Ranjeet Singh Sons of Sardar Jagdish Singh, Radheshyam, Mata Prasad, Sri Krishna Sons of Mahadev R/o Vill, Sarju Prasad Yadav S/o Bindaddeen Yadav R/o 276 Avash Vikash Colony Rbl, Md Junaid, Md Besam Sons of Abdul Hameed R/o Shahar Raebareli</p>
					Government	Sadak Pokhta		Government
				71	Private	Agriculture	668	0.0668
								<p>Smt. Indrajeet Kaur W/o Surjeet Singh, Rohit S/o Manjeet Singh, Simran (Minor-12yrs) S/o Manjeet Singh Gardian Father Self, Surjeet Singh, Manjeet Singh, Ranjeet Singh Sons of Sardar Jagdish Singh, Smt. Jaspreet Kaur W/o Ranjeet Singh R/o Kainat Road Prakash Nagar Raebareli</p>
				72	Private	Agriculture	3,133	0.3133
								<p>Abd. Baksh S/o Md Rasul R/o Vill</p>
				73	Private	Agriculture	2,198	0.2198
								<p>Abd. Baksh S/o Md Rasul R/o Vill</p>
				76	Private	Agriculture	421	0.0421
								<p>Bhagwan Dosh S/o Lala R/o Vill</p>
				77	Private	Agriculture	1,070	0.107
								<p>Ram Kishan, Rajendra, Chandra Prakash, Nand Kishor Sons of Mata Doss R/o Vill</p>
				78	Private	Agriculture	864	0.0864
								<p>Ramkishore, Ram Narsh, Munnu Sons of Bhawan R/o Vill</p>
				79	Private	Agriculture	154	0.0154
								<p>Om Prakash, Rakesh Sons of Rameshwar, Sunder Lal, Sajiwan Sons of Bhare R/o Vill</p>
				80	Government	Road	257	0.0257
				81	Private	Agriculture	3,834	0.3834
								<p>Smt. Manish W/o Krishan R/o Vill</p>
				90	Government	Road	809	0.0809
								<p>Government</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				91	Private	Agriculture	362	0.0362	Sardar, Kallan, Shamim, Ashim, Nasim Sons of Jumai, Benchu S/o Babu, Lallan, Islam, Shalim, Yusuf, Shalim Ali Sons of Umar, Smt. Ram Pyari W/o Chhote Lal R/o Vill
				92	Private	Agriculture	1,336	0.1336	Shyam Sundar S/o Hublal, Matadeen, Darshan, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Gangadeen S/o Pancham, Gyani S/o Ram Charan, Babu Bhagauti S/o Lala R/o Vill
				93	Private	Agriculture	2,361	0.2361	Smt. Kamla Devi W/o Gurudin, Ram Kishun S/o Bhagauti R/o Vill
				94	Private	Agriculture	301	0.0301	Smt. Kamla Devi W/o Gurudin, Ram Kishun S/o Bhagauti R/o Vill
				95	Private	Agriculture	1,513	0.1513	Smt. Kamla Devi W/o Gurudin, Ram Kishun S/o Bhagauti R/o Vill
				96	Government	Road	185	0.0185	Government
				97	Private	Agriculture	1,197	0.1197	Raj Kishor, Tez Bahadur Sons of Pitambar R/o Vill
				149	Private	Agriculture	1,742	0.1742	Radheshyam, Mata Prasad, Srikrishna Sons of Mahadev, Jagannath, Ramprasad Sons of Maharajdeen R/o Vill
				154	Private	Agriculture	279	0.0279	Ramasre, Ravi Shankar, Parmeshwar, Manoj Kumar Sons of Bharose, Shankar Lal, Dharmendra Kumar, Jitendra Kumar Sons of Ram Avtar, Guddu S/o Buddhulal, Kandhai, Prem, Hazari Sons of Nanku R/o Vill
				156	Private	Agriculture	62	0.0063	On. Prakash S/o Kallu, Ramajivan S/o Dhaku R/o Vill, Mata Prasad S/o Mahadev, Ram Naresh S/o Sitaram, Smt Hubby W/o Late Vipati R/o Vill, Rameshwar, Sundarlal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Matadeen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Narain, Babu, Bagauti Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Smt Budhan Mata, Smt Budhan W/o Late Darshan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				157	Private	Agriculture	721	0.0721
								Om Prakash S/o Kallu, Ramsajivan S/o Dhaku R/o Vill, Mata Prasad S/o Mahadev, Ram Naresh S/o Sitaram, Smt Hubby W/o Late Vipati R/o Vill, Rameshwar, Sundarlal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Matadeen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Babu, Bagauti Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Budhan Mata, Smt Budhan W/o Late Darshan
				158	Private	Agriculture	798	0.0798
								Om Prakash S/o Kallu, Ramsajivan S/o Dhaku R/o Vill, Mata Prasad S/o Mahadev, Ram Naresh S/o Sitaram, Smt Hubby W/o Late Vipati R/o Vill, Rameshwar, Sundarlal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Matadeen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Babu, Bagauti Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Budhan Mata, Smt Budhan W/o Late Darshan
				159	Private	Agriculture	587	0.0587
								Om Prakash S/o Kallu, Ramsajivan S/o Dhaku R/o Vill, Mata Prasad S/o Mahadev, Ram Naresh S/o Sitaram, Smt Hubby W/o Late Vipati R/o Vill, Rameshwar, Sundarlal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Matadeen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Babu, Bagauti Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Budhan Mata, Smt Budhan W/o Late Darshan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				160	Private	Agriculture	812	0.0812	Om Prakash S/o Kallu, Ramsajivan S/o Dhaku R/o Vill, Mata Prasad S/o Mahadev, Ram Naresh S/o Sitaram, Smt Hubby W/o Late Vipati R/o Vill, Rameshwar, Sundarlal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Matadeen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Babu, Bagauti Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Budhan Mata, Smt Budhan W/o Late Darshan
				161	Private	Agriculture	372	0.0372	Om Prakash S/o Kallu, Ramsajivan S/o Dhaku R/o Vill, Mata Prasad S/o Mahadev, Ram Naresh S/o Sitaram, Smt Hubby W/o Late Vipati R/o Vill, Rameshwar, Sundarlal Sons of Raghunath, Mu. Binda Dei W/o Matadeen, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Babu, Bagauti Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Budhan Mata, Smt Budhan W/o Late Darshan
				162	Private	Agriculture	146	0.0146	Raj. Kishan, Tej Bahadur Sons of Pitamber R/o Vill
				163	Private	Agriculture	2,212	0.2212	Arbika Prasad S/o Bhagauti Prasad R/o Vill
				164	Private	Agriculture	5,549	0.5549	Smt. Shivkali W/o Late Ganga Prasad, Smt. Manjalata W/o Late Hazarilal, Smt. Asha Devi W/o Rakesh Kumar R/o Vill
				165	Private	Agriculture	436	0.0436	Shyam Shankar S/o Ram Prasad R/o Vill
				167	Private	Agriculture	56	0.0056	Sundarlal S/o Raghunath, Lulu W/o Late Raghunath, Matadeen, Nanhe, Genda, Ramkewal Sons of Naraian, Genda S/o Ramcharan, Balu, Bhatgauri Sons of Lala, Mangre S/o Udayram, Birendra, Surendra Sons of Darshan, Narendra (Minor-11yrs) S/o Darshan Gardian Smt. Budhan Mata, Smt. Budhan W/o Late Darshan R/o Vill; Smt. Kalawati W/o Late Srinath R/o Munshiganj
					Private	Agriculture	3,214	0.3214	Laxman S/o Chakrabarti, Lak. Senkar R/o Chak. Dandabag, Vikramnagar Rbi, Jaageshwar Prasad, Babulal, Sripal, Srinath, Kallu Sons of Nanku R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				169	Private	Agriculture	3,892	0.3892	Kanhaiyalal S/o Durgadeen, Buddhalal, Lalta Prasad, Kishorilal Sons of Chandrika Prasad, Md. Rauf S/o Abdul Hafeez, Ram Shankar S/o Binda Prasad, Amratlal, Madanlal, Babulal, Ashok Kumar, Pramod Kumar, Mahendra Kumar, Rajendra Kumar, Dharmendra Kumar, Dharmesh Kumar Sons of Mewalal, Smt. Baladei W/o Late Mevalal, Ramshankar S/o Binda Prasad R/o Vill
				184	Matruk	Matruk	75	0.0075	Matruk
				187	Private	Agriculture	66	0.0066	Ashish Kumar S/o Ambika Prasad R/o Prabha Complex Shastrinagar Raebareli
				188	Private	Agriculture	2,008	0.2008	Ganga, Shivprasad Sons of Sriram, Puttilal, Deviprasad, Karunashankar, Omprakash Sons of Sunder R/o Vill
				195	Government	School	946	0.0946	Government
				196	Private	Agriculture	2,148	0.2148	Gayaprasad, Chandraprakash, Omprakash S/o Kakore R/o Vill
				197	Private	Agriculture	465	0.0465	Chandra Bhushan, Buddhu Sons of Gajadhar R/o Vill
				198	Private	Agriculture	608	0.0608	Satyenarayan W/o Pitai R/o Vill
				201	Private	Agriculture	806	0.0806	Ramchilawan S/o Gaya R/o Vill
				203	Private	Agriculture	1,820	0.182	Ganga, Shivprasad Sons of Sriram, Puttilal, Deviprasad, Karunashankar, Omprakash Sons of Sunder R/o Vill
				204	Private	Agriculture	414	0.0414	Smt Munni Devi W/o Bhawani Prasad S/o Sukhlal R/o Vill
				205	Private	Agriculture	320	0.032	Ganga, Shivprasad Sons of Sriram, Puttilal, Deviprasad, Karunashankar, Omprakash Sons of Sunder R/o Vill
				206	Private	Agriculture	2,264	0.2264	Pradeep, Kuldeep Sons of Bharat, Smt Geeta W/o Late Bharat, Ganga, Shivprasad Sons of Sriram, Puttilal, Deviprasad, Karunashankar, Omprakash Sons of Sunder, Smt. Munni W/o Bhawani Prasad S/o Sukhlal R/o Vill
				212	Private	Agriculture	441	0.0411	Maiku S/o Jodhi R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				213	Private	Agriculture	1,771	0.1771	Arvind Kumar, Anand Kumar, Anup Kumar, Ashish Kumar Sons of Ambika Prasad R/o Prabha Complex Shastrinagar Rbl, Ashok Kumar, Anil Kumar, Manjeet Prasad, Ajay Kumar Sons of Bhagauti Prasad. Kedarnath, Manoj Kumar, Amit Kumar, Arun Kumar, Alok Kumar Sons of Akshaywar Prasad, Savitri Devi W/o Akshaywar Prasad, Smt Bimla Singh W/o Ganga Baksh R/o Vill
				214	Private	Agriculture	2,234	0.2234	Ramaasere, Ravishankar, Parmeshwar, Manoj Kumar Sons of Bharose, Shankarlal, Dharmendra Kumar, Jitendra Kumar Sons of Ramavtar, Guddu S/o Buddhulal, Kandhai, Prem, Hazari Sons of Nanku R/o Vill
				215	Private	Agriculture	1,160	0.116	Smt. Mayka W/o Surju R/o Vill
			(3) Dariyapur	111	Private	Agriculture	629	0.0629	Gurudayal S/o Rambhrose R/o Vill, Kashiprasad S/o Late Mevalal R/o 2865 Nehrunagar Rbl
				112	Private	Agriculture	152	0.0152	Sarju Prasad S/o Narayan R/o Bada Dech M. Jhakraasi
				113	Private	Agriculture	2,144	0.2144	Janardan S/o Rameshwar, Girjanandan, Kamakhya Nandan, Brijesh Nandan Sons of Radheshyam, Dharendra Kumar, Dharmendra Kumar, Parmendra Kumar Sons of Ganesh Prasad R/o Vill
					Government	Banjar			Government
				118	Private	Agriculture	5,499	0.5499	Sarju Prasad S/o Narayan R/o Bada Dech M. Jhakraasi
				125	Private	Agriculture	3,643	0.3643	Ram Sawarup S/o Gayadeen, Bhagwandeem, Shivbodhan Sons of Bindadeen, Smt Bhagauti Devi W/o Late Bindadeen, Hari Prasad, Chhotelal Sons of Matabadal, Shiv Shanker S/o Kodau R/o Vill
				131	Government	Road	250	0.025	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				132	Private	Agriculture	2,100	0.21	Jaiprakash, Ram Milan Sons of Kunwar Lal, Smt Kalika Devi W/o Late Kunwar Lal, Devraj, Ramnath Sons of Bhaideen, Ramswaroop S/o Gayadeen, Bhagwandeem, Shivbodhan Sons of Bindadeen, Smt Bhagauti Devi W/o Late Bindadeen, Hariprasad, Chhotelal Sons of Matabadal, Shivshankar S/o Kodau, Sankatha S/o Dasau, Ramavtar Singh, Ramnarain Singh Sons of Ramjiyawan Singh R/o Vill
				133	Private	Agriculture	382	0.0382	Smt Vineeta Shukla W/o Uday Pratap R/o Poore Nidhau Teh Salon, Smt Urmila, W/o Shiv Pratap Shukla, Sushma Tripathi W/o Ramesh Kumar, Smt Mithlesh Shukla W/o Harsh Narain, Smt Chandrawati W/o Krishna Kumar R/o Nehrunagar Rbl, Suryapal S/o Ramratan R/o Poore Karain M. Vill, Ram Avtar Singh, Ram Narain Singh Sons of Ramjiyawan Singh, Smt Pushpa Devi W/o Late Ramawatar Singh R/o Vill, Suryapal s/o Ramratan R/o Poorekarain M. Vill, Smt Nanka Devi W/o Nandlal Yadav R/o Vill,
									Rekha Yadav R/o Anil Kumar Yadav R/o Murshidabad Teh Dalmau, Smt Phooladevi W/o Surajpal R/o Purekarain M. Raghunathpur, Smt Krishna Kumari W/o Medilal Verma R/o NTPC Colony Unchahar, Smt Mithlesh Shukla W/o Harsh Narain, Smt Chandrawati w/o Krishna Kumar R/o Nehrunagar Rbl, Smt Nirmala Devi W/o Vishambhar Yadav R/o Bitauli Teh Dalmau Dist Rbl, Smt Urmila W/o Shivpratap Shukla, Sushma Tripathi W/o Ramesh Kumar R/o Nehrunagar Rbl, Mangre Prasad S/o Badlu Ram R/o NTPC Unchahar
					Government	Sadak Pokhta			Government
				134	Government	Road	1,266	0.1266	Pakki Sadak Raibaerilly Se Pratapgarh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				135	Private	Agriculture	1523	0.1523
								Ramnarayan S/o Rameshwar R/o Vill, Laxmi Shankar Tiwari S/o Awadh Bihari Tiwari, Ajeet Kumar, Pradeep Kumar, Ashish Kumar Sons of Laxmi Shankar Tiwari R/o Gandhinagar Rbl, Janardan S/o Rameshwar R/o Vill, Smt. Sail Kumari W/o Rajkumar R/o Dedani, Girjanandan, Kamakhya Nanadan, Brijesh Nandan Sons of Radheshyam R/o Vill, Dhirendra Kumar, Dharmendra Kumar, Pramendra Kumar Sons of Ganesh Prasad R/o Vill, Smt Dayawati W/o Santdeen R/o Purematauli M. Bhaon, Chandrabhushan S/o Rampal,
								Smt Ram Dulari W/o Chandrabhushan R/o Pure Gosai M. Jhakrasi, Vinay Kumar Dwivedi S/o Saryu Prasad Dwivedi R/o 788 New Rana Nagar Rbl, Hemlata Singh D/o Nagendra Bahadur Singh R/o Vill Bandai Par. Sareni Teh Lalganj Rbl, Rampratap Singh S/o Veer Bahadur Singh R/o MIG 13 Indiranagar Rbl, Smt Stuti Singh W/o Ajay Pratap Singh R/o Dariyapur
			(4) Jhakrasi	1365	Private	Agriculture	337	0.0337
				1366	Private	Agriculture	7,214	0.7214
								Bajrangi S/o Kedar R/o Vill Sunder Lal, Ramasare, Sailendra Kumar Sons of Medi Lal R/o Vill, Smt Chhitana W/o Bali
				1367	Private	Agriculture	202	0.0202
								Jgeshwar S/o Baijnath, Gurudeen S/o Khirai, R/o Vill
				1382	Government	Pond	1,974	0.1974
				1383	Private	Agriculture	870	0.087
								Government Ramkumar, Avsan Sons of Sukhdev, Ram Swaroop Sant, Ram Naresh Sons of Ram Avtar R/o Vill
				1385	Private	Agriculture	440	0.044
								Sectaladeen, Devideen, Ganesh Sons of Guru R/o Vill
				1386	Private	Agriculture	266	0.0266
								Rakesh Kumar, Ramkishor Sons of Gurudeen, Ram Narain Tiwari S/o Rameswar Tiwari R/o 787 Rana Nagar Rbl, Ramasre S/o Medilal, Rambaksh, Ramcharan, Rampratap, Rajjanlal Sons of Chaturi, Satya Naraini Shiksha Niketan Dariyapur Manager Ramnarayan S/o Rameswar R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1387	Private	Agriculture	3,500	0.35	Pankaj Kumar, Indiar Sons of Rakesh Kumar, Smt Janak Nandani w/o Late Rakesh Kumar, Ramkishor, Rakesh Kumar Sons of Gurudin, Mataprasad, Nirmal Chandra, Mulchandra Sons of Keshav Datt R/o Vill
				1388	Private	Agriculture	660	0.066	Pankaj Kumar, Indiar Sons of Rakesh Kumar, Smt Janak Nandani w/o Late Rakesh Kumar, Ramkishor, Rakesh Kumar Sons of Gurudin, Mataprasad, Nirmal Chandra, Mulchandra Sons of Keshav Datt R/o Vill
				1401	Government	Gram Samaj	1,719	0.1719	Government
				1402	Private	Agriculture	1,189	0.1189	Pankaj Kumar, Indiar Sons of Rakesh Kumar, Smt Janak Nandani W/o Late Rakesh Kumar, Rajiv Kumar S/o Shiv Sewak, Pushpendra Kumar S/o Sudhakar, Smt Shivpyari W/o Late Sudhakar, Mataprasad, Nirmal Chandra, Mulchandra Sons of Keshav Datt R/o Vill
				1403	Private	Agriculture	2,643	0.2643	Vijay Shankar, Dev Shankar, Shiv Shankar Sons of Sukhdev, Shivakant, Laxmi Shankar Sons of Rameshwar, Krishna Dutt S/o Jagdutt, Anurag Agrahari S/o Sushil Kumar Agrahari, Smt. Saraswati Devi w/o Ravindra Vikram R/o Vill, Ravindra Vikram S/o Medi Lal R/o 24A Prakash Nagar Rbl, Harischandra Gupta S/o Shyam Lal Gupta R/o Soniyanagar Rbl, Devendra Dutt S/o Shankar Dutt, Smt Vimla Devi W/o Late Shankar Dutt R/o Vill
				1404	Private	Agriculture	846	0.0846	Pankaj Kumar, Indiar Sons of Rakesh Kumar, Smt Janak Nandani W/o Late Rakesh Kumar, Rajiv Kumar S/o Shiv Sewak, Pushpendra Kumar S/o Sudhakar, Smt Shivpyari W/o Late Sudhakar, Mataprasad, Nirmal Chandra, Mulchandra Sons of Keshav Datt R/o Vill
					Government	Gram Samaj			Government
			(5)	335	Government	Khalihan	41	0.0041	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Mohammadpur Kuchariya	390	Private	Agriculture	118	0.0118	Babulal S/o Nankau, Jawahar, Vishwanath, Rampyare Sons of Chaubey, Salig Ram Shukla S/o Basudev, Smt. Badala W/o Durga, Smt. Prabhu Dei W/o Durga R/o Vill, Balashtar S/o Lallu R/o Chakoni Khurd Tajah Shahbad Dist Hardoi, Md. Shabir, Shah Mohammed (Adult), Salman (Minor-12yrs) Sons of Nur Mohammed Gardian Father Self R/o Vill
				899	Private	Agriculture	94	0.0094	Lalla S/o Jagmohan, Shambhu, Shivkumar Sons of Jagmnath, Parashnath S/o Shivram, Smt. Usha W/o Doodhnath D/o Ganga Vishun R/o Vill
				900	Private	Agriculture	59	0.0059	Lalla S/o Jagmohan, Shambhu, Shivkumar Sons of Jagmnath, Parashnath S/o Shivram, Smt. Usha W/o Doodhnath D/o Ganga Vishun R/o Vill
				1021	Government	Pond	32	0.0032	Government
				1059	Private	Agriculture	99	0.0099	Sriram S/o Badal, Ram Sanehi S/o Jagdish R/o Vill
			(6) Sarai Mohd Sharif	425	Matruk	Matruk	34	0.0034	Matruk
				473	Matruk	Matruk	59	0.0059	Matruk
				532	Private	Agriculture	133	0.0133	Smt. Asha Singh W/o Ram Sudhar Singh, Azad Pratap Singh S/o Kedar Nath Singh, Rajkaran Singh S/o Ramsurat Singh R/o Vill, Janakraj Devi W/o Ramshankar Singh, Rajkumari W/o Harishchandra Singh R/o Pure Baniya M. Haibatmau P. & Teh Dalmau, Phoolchandra Singh S/o Matabaksh Singh, Smt. Krishna Devi W/o Jitendra Singh, Dilawar Singh S/o Suryabhan Singh R/o Vill
				554	Private	Agriculture	186	0.0186	Sumitra Devi w/o Sukhdev Singh R/o Vill
				555	Private	Agriculture	191	0.0191	Smt. Shanti Devi W/o Jamadar Singh R/o Vill
				570	Private	Agriculture	159	0.0159	Ram Sundar Singh S/o Shitla Baksh Singh, Jagat Bahadur Singh, Kailash Bahadur Singh, Virendra Bahadur Singh, Kunwar Bahadur Singh, Narendra Bahadur Singh Sons of Lal Bahadur Singh, Kalika Baksh Singh, Phool Singh, Jwala Singh, Devi Baksh Singh, Pankaj Singh Sons of Ram Bahadur Singh Urf Ram Harsh Singh R/o Vill
				571	Matruk	Matruk	212	0.0212	Matruk
				572	Private	Agriculture	192	0.0192	Kedarnath Singh, Kamtanath Singh Sons of Ram Naraian Singh R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				574	Private	Agriculture	150	0.015	Budhram s/o Prahlad, Ramnath, Hanuman, Shyam Lal, Ganga Ram, Sita Ram Sons of Subba, Sukhlal s/o Surju R/o Vill
		2. Unchahar	(1) Nawabganj	27	Government	Barren	152	0.0152	Government
				28	Government	Dung Pit (Gram Samaj)	37	0.0037	Government
				45	Government	Chakroad	20	0.002	Government
				57	Private	Agriculture	39	0.0039	Shambu Prasad s/o Jagannath R/o Vill
				85	Private	Agriculture	16	0.0016	Kalawati W/o Radha Krishna, Smt Puja W/o Late Brajkishor, Suraj Kumar, Rishabh Kumar (Minor-14, 9 yrs) Sons of Late Braj Kishor Gardian Puja R/o Vill
				86	Private	Agriculture	92	0.0092	Basudev Prasad S/o Rameshwar Prasad R/o Vill
			(2) Bheekh	363	Private	Agriculture	448	0.0448	Badri Narayan Singh S/o Bhagwat Singh, Dugendra Bahadur Singh, Aarvind Kumar Singh Sons of Narsingh Bahadur Singh R/o Vill, Ashok Bahadur Singh, S/o Pratap Bahadur Singh R/o Dhobaha, Kaptan Singh S/o Gayabaksh Singh, Kanchan Singh W/o Gayabaksh Singh, Ganesh Baksh Singh S/o Shiv Narayan Singh, Bindadeen s/o Datadeen R/o Vill
			(3) Tanghan	17	Private	Agriculture	223	0.0223	Smt Kevla Devi W/o Srinath R/o Vill
				18	Private	Agriculture	141	0.0141	Shivkant S/o Sukhram R/o Vill
				23	Government	Barren	173	0.0173	Government
				161	Private	Agriculture	269	0.0269	Rajkumar S/o Sukhnandan, Smt. Pushpa Devi W/o Rajkumar R/o Vill Jagatpur, Smt Ramakanti W/o Ramlakhan, Harishankar S/o Sukhraj Prasad, Umashankar S/o Ramratan, Shivkumar S/o Sukhram R/o Vill
				163	Private	Agriculture	68	0.0068	Pramod Kumar, Jitendra Kumar Sons of Shyamlal, Shivmohan, Shiv Nayak Sons of Sukhram, Neeraj Kumar, Dhiraj Kumar sons of Shivbhajan, Savitri Devi W/o Late Shiv Bhajan, Smt Prabha Devi W/o Shyamlal R/o Vill
				164	Private	Agriculture	28	0.0028	Pramod Kumar, Jitendra Kumar Sons of Shyamlal, Shivmohan, Shiv Nayak Sons of Sukhram, Neeraj Kumar, Dhiraj Kumar Sons of Shivbhajan, Mu Savitri Devi W/o Late Shiv Bhajan, Smt Prabha Devi W/o Shyamlal R/o Vill
				165	Private	Agriculture	70	0.007	Shivnarayan S/o Medai R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				166	Private	Agriculture	47	0.0047	Satyanaraian, Shivanaraian, Shivalal, Jaynaraian, Laxmi Naraian Sons of Avsan, Smt Phula Devi W/o Late Avasan R/o Vill	
				167	Private	Agriculture	57	0.0057	Devideen, Ishwarlal, Bhagawandeen Sons of Shattideen, Ramchandra, Punamchandra, Maheshchandra, Hukumchandra Sons of Parmeshwar Deen R/o Vill	
				168	Private	Agriculture	51	0.0051	Babulal, Ramnath Sons of Gangadeen Pasi, Ramesh Kumar S/o Ramkishun R/o Vill Revri M. Chaknizam, Chhotelal, Sripal, Surajpal Sons of Ramdayal, Smt Chaubarani W/o Late Ramdayal R/o Vill	
				169	Government	Barren	20	0.002	Government	
				170	Private	Agriculture	48	0.0048	Kodau S/o Mangre, Sitaram, Radheshyam Sons of Hublal R/o Vill	
				229	Private	Agriculture	43	0.0043	Rajbahadur Singh, Jagbahadur Singh Sons of Mahaveer Singh, Himmat Bahadur Singh s/o Mahadev, Surjeet Singh, Ranvijay Singh, Rajendra Bahadur Singh Sons of Rambahadur Singh, Smt Shantidevi w/o Late Ramabhadur Singh, Dharmesh Singh, Direndra Singh Sons of Fateh Bahadur Singh, Smt Leeladevi w/o Late Fateh Bahadur Singh R/o Vill	
				230	Private	Agriculture	25	0.0025	Lonai S/o Matabadal, Durga, Suraj Deen, Mangal Sons of Sheetal, Buddhulal, Brajlal Sons of Ramsevak, Ramkishun, Rambaksh, Ramdev Sons of Sukhlal R/o Vill	
				253	Private	Agriculture	44	0.0044	Chhitai Prasad, Ramavtar Sons of Pancham, Mu Maika w/o Late Pancham, Budhai S/o Ori Chamar R/o Vill, Smt Ram Lali W/o Jagatpal Singh, Jagatpal Singh S/o Sukhpal Singh R/o Jingna	
				260	Government	Barren	181	0.0181	Government	
				261	Government	School Farm	139	0.0139	Government	
				262	Government	Aabadi	26	0.0026	Government	
				263	Private	Agriculture	9	0.0009	Kamla Devi W/o Ramkishor R/o Vill	
					Government	Bheeta			Government	
				(4) Bairihar	229	Government	Road	121	0.0121	Government
					230	Government	Barren	25	0.0025	Government
					231	Government	Road	37	0.0037	Government
					236	Government	Road	261	0.0261	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				237	Private	Agriculture	44	0.0044	Dwarka Prasad s/o Nankau, Krishna Kumar, Ram Gopal Sons of Bindeswari, Jagrani W/o Late Bindeswari, Smt Rampati W/o Ganeshi, Ayodhya, Ramlal Bharose Sons of Kakore, Satyanarain, Ramnarain, Ramasre, Shatruhan Lal, Chhotelal Sons of Bindadeen, Surajdeen S/o Shital R/o Vill
					Government	Barren			Government
			(5) Rojhaiya Gokulpur	58	Private	Agriculture	129	0.0129	Ram Swaroop, Ram Dayal Sons of Thhuni R/o Vill
				90	Government	Chak Road	3	0.0003	Government
				93	Private	Agriculture	345	0.0345	Rajupal S/o Ramphal, Smt Safikunnisha W/o Md Kayum R/o Vill
				360	Private	Agriculture	217	0.0217	Narvada Prasad, Badri Prasad Sons of Jagatpal, Sadashiv S/o Beniprasad, Tejnath S/o Devi Dayal, Smt Malti Devi W/o Ram Narain R/o Vill
			(6) Etaura Bujurg	1767	Private	Agriculture	1,052	0.1052	Laluram, Shivharsh, Shivcharan, Devi Saran Sons of Harilala R/o Vill
				1768	Private	Agriculture	119	0.0119	Prabhu Dayal, Ram Adhar Sons of Bhawani Bheekh, Rajendra Prasad, Prem Chandra, Girishchandra, Rajkumar Sons of Mahadev, Deepak, Suraj Sons of Hukumchandra, Smt Pushpa Devi W/o Late Hukumchandra, Smt Sunaina W/o Late Shivkumar R/o Vill
				1769	Private	Agriculture	2,077	0.2077	Rajendra Prasad, Prem Chandra, Girish Chandra, Rajkumar Sons of Mahadev, Shivkumar, Prabhudayal, Ramadhar Sons of Bhawani Bheekh, Lakha W/o Late Mahadev, Chintamani, Bhagwat Prasad, Gajadhar Nath Sons of Suraj Prasad, Deepak, Suraj Sons of Hukumchandra, Smt Pushpa Devi W/o Late Hukumchandra R/o Vill
				2552	Private	Agriculture	745	0.0745	Bitana w/o Maiku R/o Vill, Vinod Kumar, Ram Bahadur R/o Chadrai
				2680	Private	Agriculture	190	0.019	Kewal Prasad S/o Surajpal, Satish, Shyam Sons of Madan, Jagdish Prasad S/o Bhagwan, Ashok Kumar, Kishore Kumar, Anil Kumar Sons of Umashankar, Shivkali W/o Late Umashankar R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2685	Private	Agriculture	861	0.0861	Sohanlal s/o Swami Dayal R/o Chadrai, Kuldeep (Minor-8yrs) s/o Tejbahadur Gardian Sadhanadevi Mother, Tejbahadur S/o Triveni Prasad, Smt Kalawati W/o Dhanpal R/o Vill
				2688	Government	Chak Marg	28	0.0028	Government
				2691	Private	Agriculture	449	0.0449	Raghunath, Sundarlal, Vishwanath Sons of Ramsewak R/o Vill, Chandra Kishore S/o Ramdulare R/o Kotiya Chitra, Smt Rajrani W/o Lahaprasad R/o Babhanpur, Neelam Singh D/o Avdhesh Kumar R/o Khajuri M. Itaura Bujurg
			(7) Savaia Hasan	663	Private	Agriculture	418	0.0418	Ganga Vishnu, Ashok Kumar, Anil Kumar, Balaram Sons of Gaya Prasad R/o Vill
				664	Government	Chak Road	11	0.0011	Government
				665	Private	Agriculture	194	0.0194	Shivbalak S/o Baiju, Ramdev Ram Samujh Sons of Babu, Shri Ram, Ramsajivan Sons of Bhagwan, Devnaraian s/o Lal bahdur, Ram Abhilakh, Ram Lakhan s/o Shirmangal, Ram Bhawan s/o Kedar, Smt Sampati w/o Late Kedar R/o Vill
			(8) Samapur Newada	1240	Private	Agriculture	106	0.0106	Mehbub Khan, Rahmat Khan, Aftab Ahmad Khan, Hasan Khan Sons of Hurmat Khan R/o Savaiya Hasan, Amarnath Tripathi S/o Brijlal R/o Daulatpur, Akhtarun Nisha W/o Late Khalil Khan, Hasnein Khan, Kabnein Khan, Parwez Khan, Avesh Khan, Javed Khan, Sahdain Khan, Alfaz Khan Sons of Khalil Khan, Sarwar Khan S/o Gulam Asgar Khan, Aleem Khan S/o Saleem Khan, Mukeem Khan, Mustkeem Khan, Tasleem Khan, Nadeem Khan Sons of Naicem Khan, Sarvari Begum, Hakikunnisha Wives of Nayeem Khan R/o Savaiya Hasan, Anil Kumar Gupta S/o Raghunandan Prasad Gupta R/o Khatri Tola Nagar Panchayat Unchahar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1241	Private	Agriculture	54	0.0054	Mehbub Khan, Rahmat Khan, Aftab Ahmad Khan, Hasan Khan Sons of Hurmat Khan R/o Savaiya Hasan, Amarnath Tripathi S/o Brijlal R/o Daulatpur, Akhtarun Nisha W/o Late Khalil Khan, Hasnein Khan, Kabnein Khan, Parwez Khan, Avesh Khan, Javed Khan, Sahdain Khan, Alfaz Khan Sons of Khalil Khan, Sarwar Khan S/o Gulam Asgar Khan, Aleem Khan S/o Saleem Khan, Mukeem Khan, Mustkeem Khan, Tasleem Khan, Nadeem Khan Sons of Naicem Khan, Sarvari Begum, Hakikunnisha Wives of Nayeem Khan R/o Savaiya Hasan, Anil Kumar Gupta S/o Raghunandan Prasad Gupta R/o Khatri Tola Nagar Panchayat Unchahar
				1242	Private	Agriculture	47	0.0047	Mehbub Khan, Rahmat Khan, Aftab Ahmad Khan, Hasan Khan Sons of Hurmat Khan R/o Savaiya Hasan, Amarnath Tripathi S/o Brijlal R/o Daulatpur, Akhtarun Nisha W/o Late Khalil Khan, Hasnein Khan, Kabnein Khan, Parwez Khan, Avesh Khan, Javed Khan, Sahdain Khan, Alfaz Khan Sons of Khalil Khan, Sarwar Khan S/o Gulam Asgar Khan, Aleem Khan S/o Saleem Khan, Mukeem Khan, Mustkeem Khan, Tasleem Khan, Nadeem Khan Sons of Naicem Khan, Sarvari Begum, Hakikunnisha Wives of Nayeem Khan R/o Savaiya Hasan, Anil Kumar Gupta S/o Raghunandan Prasad Gupta R/o Khatri Tola Nagar Panchayat Unchahar
				1245	Private	Agriculture	31	0.0031	Mehboob Khan, Rahmat Khan, Hasmat Khan, Aftab Khan Sons of Hurmat Khan, Akhtarunnisha W/o Late Khalil Khan, Hasnain Khan, Kabnain Khan, Parvej Khan, Avesh Khan, Javed Khan, Sahdain Khan, Alfaj Khan Sons of Khalil Khan R/o Savaiya Hasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1248	Private	Agriculture	649	0.0649	Sajid Khan, Rasid Khan Sons of Jahid Khan, Khalid Khan S/o Abid Khan, Talib Khan (Minor-15yrs) S/o Abid Khan Gardian Fatima Bano, Abrar Khan, A. Jabbar Khan, Sons of A. Gaffar Khan, Mukarram Khan, Waseer Khan, Hafij Khan, Muwajjaj Khan Sons of Muharram Khan, Md Rafiq Khan, Md Meraz Khan Sons of Md. Idrish Khan, M. Achchhan, Khatun W/o Idrish Khan, Munir Khan, Shakil Khan, Wakil Khan, Mustakim Khan Sons of Razzab Khan Mo. Aaibhavi W/o Late Moharram Khan, Mubarak Khan, Masood Khan, Md Husain Khan, Muazzam Khan, Azam Khan Sons of Moharran Khan, Siraz Khan, Mumtaj Khan Sons of Inayat Ulla Khan, Mo. Rahmatunnisha W/o Late Inayatulla Khan R/o Vill Savaiya Hasan
			(9) Khojanpur	1	Private	Agriculture	375	0.0375	Angan S/o Laxman, Ramlakhan, Shivpratap Sons of Angan R/o Vill, Laxmi Narain S/o Shiv Narain R/o Arkha, Shivkali W/o Ramadhar, Smt. Janaki W/o Bholu Ram R/o Vill
					Government	Usar			Government
				53	Private	Agriculture	698	0.0698	Md. Iliyash S/o Sher Mohd R/o Vill Unchahar, Rammanohar Urf Brandavan, Suresh Kumar, Rajesh Kumar Sons of Ramkumar, Vivek Singh S/o Shiv Pratap Singh, Urmila Singh W/o Late Shiv Pratap Singh, Ravi Pratap Singh S/o Surendra Pratap Singh, Kamlesh Kumar Singh, Rajesh Kumar Singh Sons of Sharda Sharan Singh R/o Vill, Md Rashid Ansari S/o Mehmudul Hasan, Samsul Haq S/o Md Ramjan R/o Unchahar, Ramkumar S/o Thakurdeen R/o Vill, Rakesh Kumar S/o Shripal R/o Poorechadan, Smt Kusuma Devi W/o Ganga Prasad R/o Sithaura Teh Khaga Dist Fatehpur
				55	Private	Agriculture	215	0.0215	Vidyasagar S/o Mahadev, Dr Sant Lal S/o Satnager, Smt Kanya Devi W/o Ghanshyam Verma, Ghanshyam Verma S/o Late Daya Shankar Verma R/o Vill
					Government	Usar			Government
				56	Private	Agriculture	210	0.021	Smt Anita Rai W/o Dayaram R/o Vill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				58	Private	Agriculture	141	0.0141	Ram Manohar Urf Brandevan, Suresh Kumar, Rajesh Kumar Sons of Ramkumar, Kamlesh Kumar Singh, Rajesh Kumar Singh Sons of Sharda Sharan Singh R/o Vill, Dr. Neelam Maurya W/o Dr. Avnish Kumar Maurya R/o Babullapur Teh Kunda Dist Pratappgarh, Vivek Singh S/o Shiv Pratap Singh, Urmila Singh W/o Late Shiv Pratap Singh, Ravi Pratap Singh S/o Surendra Pratap Singh R/o Vill
				60	Private	Agriculture	205	0.0205	Abrar Khan, Abdul Jabbar Khan Sons of Gaffar Khan, Fayaz Khan S/o Riyaz Khan, Ramkumar S/o Benimadhav R/o Savaiya Hasan
				61	Private	Agriculture	488	0.0488	Kamlesh Kumar Singh, Rajesh Kumar Singh Sons of Sardasaram Singh, Ganesh Prasad S/o Kali Prasad, Nageswar Prasad S/o Ganga Prasad R/o Vill
				63	Private	Agriculture	149	0.0149	Lalta Prasad S/o Shivratan R/o Vill, Gajendra Bahadur Singh S/o Narendra Bahadur Singh R/o Purvara
				70	Government	Barren	547	0.0547	Government
				83	Private	Agriculture	545	0.0545	Md. Farukh S/o Sher Mohammad R/o Vill, Smt Suman Mishra W/o Jitendra Mishra R/o Puremishram M. Gagehra, Smt Ruby Shukla W/o Chhotelal R/o Chhipiya M., Raghunath S/o Ramdulare R/o Vill, Baijnath, Vishwanath Sons of Pancham R/o Mauraya State Railway Crossing Unchahar, Ram Asre S/o Ram Sumer R/o Vill
				92	Private	Agriculture	281	0.0281	Ramniwas S/o Devtadeen R/o Murai Ka Baag, Raees Khan, Sayeed Khan Sons of Anish Khan, Smt Akhtarun Nisha W/o Late Anish Khan R/o Vill, Abrar Khan, Abdul Jabbar Khan Sons of Gaffar Khan R/o Savaiya Hasan
				94	Government	Barren	150	0.015	Government
				100	Government	SSI	349	0.0349	Small Scale Industry (Government of Uttar Pradesh)
					Government	Usar			Government
					Government	Tehsil Bhawan Boundary			Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				267	Private	Agriculture	2323	0.2323	Gyan Bahadur Singh, Jitendra Bahadur Singh, Dharendra Bahadur Singh Sons of Devdas Singh, Smt Chhaviraj Kunwari W/o Late Devdas Singh R/o Vill, Smt Prema Singh W/o Chandrabhan Singh R/o Poore Rathore M. Unchahar	
				271	Private	Agriculture	900	0.09	Smt Krishnawati W/o Ram Lakhan, Smt Viddya Devi W/o Badri Prasad R/o Kharauli, Ram Lakhan, Badri Sons of Ramsaran R/o Vill Mu. Bhagwan Dei W/o Ram Sajiwan R/o Vill Pure Thakurain M. Kharauli	
				280	Private	Agriculture	201	0.0201	Chandanlal, Hariprasad, Ramlakhan, Ramkesh Sons of Rampal, Smt Rampyari W/o Late Rampal R/o Vill, Satyanaraian, Shivpyare Sons of Mahaveer, Ganga Prasad S/o Ramdulare, Mataprasad, Avsan Lal, Ramasre Sons of Sheetal R/o Vill Pure Palau M. Chandrai	
				(10) Unchahar	2362	Private	Agriculture	65	0.0065	Smt Radhika Devi W/o Late Shambhunath, Jagdish Narain, Jay Naraian, Raj Naraian, Rakesh Kumar, Avinash Kumar, Vikas Kumar Sons of Late Shambhu Nath R/o Vill
				2363	Private	Agriculture	227	0.0227	Smt Radhika Devi W/o Late Shambhunath, Jagdish Narain, Jay Naraian, Raj Naraian, Rakesh Kumar, Avinash Kumar, Vikas Kumar Sons of Late Shambhu Nath R/o Vill, Jagdish Prasad, Shrinewaj Sons of Durgadeen, Rajaram S/o Bhagwat R/o Vill	
				2364	Matruk	Matruk	502	0.0502	Matruk	
				2365	Private	Agriculture	142	0.0142	Chhedilal S/o Thakurdeen R/o Vill Patti Rahas Kaithwal, Smt Radhika Devi W/o Late Shambhunath, Basudev S/o Ram Narain R/o Vill, Mevalal, Ramlautan, Rambahadur Sons of Mahaveer R/o Pachkhara, Rameswar, Onkarnath Sons of Seetaldeen R/o Poore Tribhuwan, Jagdish Narain, Jai Narain, Raj Narain, Rakesh Kumar, Avinash Kumar, Vikas Kumar Sons of Late Sambhunath R/o Vill	
				2475	Matruk	Matruk	668	0.0668	Matruk	
				2476	Matruk	Matruk	49	0.0049	Matruk	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3694	Private	Agriculture	53	0.0053	Smt Radhika Devi W/o Late Shambhunath, Jagdish Narain, Jay Naraian, Raj Naraian, Rakesh Kumar, Avinash Kumar, Vikas Kumar Sons of Late Shambhu Nath R/o Vill
				3696	Private	Agriculture	46	0.0046	Bhagirath s/o Jhurilal R/o Vill
				3698	Matruk	Matruk	34	0.0034	Matruk
				3706	Private	Agriculture	26	0.0026	Sullan s/o Bakreedi, Kallan, Babban Sons of Lallan, Tazda
				3736	Government	Chief elect. Depot.	162	0.0162	Electric Vibhag Chief Engineer, Smt Radhika Devi W/o Late Shambhunath, Jagdish Narain, Jay Naraian, Raj Naraian, Rakesh Kumar, Avinash Kumar, Vikas Kumar Sons of Late Shambhu Nath R/o Vill
				3737	Private	Agriculture	68	0.0068	Inayat Fatima W/o Jacky Hasan, Gulab Chand S/o Ram Bharose R/o Vill, UP State Electric City Lko
				3738	Private	Agriculture	27	0.0027	Jagannath, Umanath sons of Gajadhar R/o Vill Savaiyadhani
				3743	Private	Agriculture	236	0.0236	Inayat Fatima W/o Jacky Hasan R/o Vill, Ramkumar S/o Ram Bharose R/o NTPC Unchahar
				3947	Government	Block Bhavan	92	0.0092	Government
				3948	Matruk	Matruk	228	0.0228	Matruk
			(11) Jairampur Urf Madariganj	143	Private	Agriculture	98	0.0098	Santsaran s/o Ram Naraian R/o Vill, Hraday Naraian, Rajesh Naraian, Munesh Naraian Sons of Jagdish Naraian R/o Rbl

[F. No. NHA/11013/LA/3D-Notif./PIU-Racbareilly]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.